प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीजीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा,अलीगढ़, संभल, श्रावस्ती,अलीगढ़ और उत्तराखंड

20 February, 2025 (Thursday)

राजस्व वसूली बढ़ाने पर जिलाधिकारी ने दिया जोर....

बिना परमिट के हरे पेड़ों पर ,चल रही है...

page 7

TRIED AND TESYED

मूल्य- ०३ रूपये पृष्ठ-०८

संछिप्त खबरे

मथुरा में पायल बनाते समय

ऑक्सीजन सिलेंडर फटा,

महिला की मौत, 2 घायलय

बुधवार को गोविंद नगर थाना क्षेत्र

से एक हादसा सामने आया है। यहां

महाविद्या कालोनी में गिलट का

पायल बनाते समय ऑक्सीजन

सिलेंडर फटने से एक महिला की

मृत्यु हो गई। जबिक दो गंभीर घायल

हो गए हैं। धमाका इतना तेज था

कि आसपास के कई मकानों में भी

दरार आ गई। पुलिस ने महिला के

क्षत विक्षत शव को एकत्रित करके

मोर्चरी में भिजवाया है। वहीं हादसे

के बाद परिजनों में कोहराम मचा

हुआ है। बता दें कि गोविंद नगर

थाना क्षेत्र के महाविद्या कालोनी में

80 फुटा रोड स्थित सेक्टर एफ में

एक मकान में ऑक्सीजन सिलेंडर

फट गया। हादसे में संजना की मृत्यु

हो गई। उनकी जेठानी मीना और

भतीजा ठाकुर घायल हो गया। धमाका सुनकर आसपास के लोग

मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम

मौके पर आ गई। पुलिस ने घायलों

को अस्पताल में भर्ती कराया है।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर

घर में कारखाना किसकी अनुमति

ट्रंप का परस्पर कर फरमान जीएसटी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अमेरिकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नयी कर

नीति को संप्रभुता के लिए खतनाक

बताते हुए कहा है कि यह जीएसटी

के लिए भी चुनौती बन गया है।

इसलिए सरकार को जल्द इससे

निपटने के उपाय करने चाहिए। पार्टी

ने कहा कि ट्रंप की पारस्परिक शुल्क

लगाने की बात बहुत चिंताजनक है

और उनका यह फरमान जीएसटी

की अवधारणा को भी चुनौती देने के साथ ही यह हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता पर भी सवाल उठाता है। कांग्रेस संचार

विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की मांग कर रही है, जो जीएसटी

को वास्तव में एक अच्छा और सरल

टैक्स बनाएगा, जैसा कि इसे मुल रूप

से बनाया गया था। कांग्रेस ने न्यनतम

दरों और व्यापक रूप से संशोधित

अनुपालन नियमों की मांग की है।

उन्होंने कहा अब राष्ट्रपति ट्रंप जीएसटी

के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर

रहे हैं। अपने मूल ढांचे के अनुसार

जीएसटी आयात पर लागू होता है,

गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए

अच्छी खबर, गिर गए सोने के दाम

कीमतों में आ रही तेजी आज थम गई

है। बुधवार (19 फरवरी) को सोने-

चांदी के वायदा भाव में गिरावट है। खबर लिखे जाने के समय आज

एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव 85,954 रुपए के करीब, जबकि चांदी

के वायदा भाव 96,558 रुपए के करीब कारोबार कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय

बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव

तेज शुरूआत के बाद सुस्त पड़ गए।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने व

चांदी के वायदा भाव तेजी के साथ

खुलने के बाद नरम पड़ गए। एमसीएक्स

पर सोना 2,954.10 डॉलर प्रति औंस

के भाव पर ख़ुला। पिछला क्लोजिंग

प्राइस २,949 डॉलर प्रति औंस था।

हालांकि खबर लिखे जाने के समय

यह 1.40 डॉलर की गिरावट के साथ

2,947.600 डॉलर प्रति औंस के भाव

पर कारोबार कर रहा था। एमसीएक्स

पर चांदी के वायदा भाव 33.42 डॉलर

के भाव पर ख़ुले, पिछला क्लोजिंग

प्राइस ३३.३७ डॉलर था।

मुंबई । दो दिन से सोने-चांदी की

लेकिन निर्यात पर नहीं।

के लिए भी चुनौतीः कांग्रेस

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में

विधानसभा बजट सत्र

संगम का जल नहाने योग्य, मानव मल की अफवाह फैला रहा विपक्ष : योगी



RNI NO.UPBIL/2021/83001

आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर अफवाह फैलाने वाले करोडों लोगों की आस्था का अपमान कर रहे हैं। अब तक महाकुंभ 🏻 कहा कि महाकुंभ का आयोजन किसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संगम का जल साफ है और डुबकी लगाने योग्य है। विपक्ष के लोग इसमें मानव मल होने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने

ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर सपा पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग पहले दिन से ही महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं।

सनातन संस्कृति का आयोजन है। महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वाले और अनर्गल आरोप लगाने वाले सनातन आस्था का अपमान कर रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में महाकुंभ पर संक्षिप्त चर्चा में जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के लोग महाकुंभ का पहले दिन से ही ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्युकुंभ कहा है। इसी तरह राजद नेता लाल प्रसाद यादव ने इसे फालतू की बात कहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि महाकुंभ की भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सनातन संस्कृति का पालन करना अपराध है तो हम ये अपराध हजार बार करेंगे। उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है संक्रमित सोच का कोई उपचार नहीं है। महाकुंभ महान आयोजन है। महान कार्य को तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उपहास से, विरोध से और स्वीकृति

अध्यक्ष खुद चुपचाप जाकर महाकुंभ में डुबकी लगा आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ किसी पार्टी विशेष और सरकार का नहीं, बल्कि समाज का आयोजन है। सरकार पीछे है। सरकार सहयोग और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सेवक के रूप में है। सेवक के रूप में उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम तत्परता के साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का अहसास है। हमारे मन में भारत की सनातन परंपराओं के प्रति श्रद्धा का भाव है और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना हमारा दायित्व है। सौभाग्य है कि सदी के महाकुम्भ के साथ सरकार

देश-दुनिया ने इस आयोजन के साथ सहभागी बनकर इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। हमारी संवेदना परिजनों के साथ, मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं प्रतिपक्ष के सदस्य डॉ. आरके पटेल, संग्राम सिंह यादव, आराधना मिश्रा 'मोना' का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जिम्मेदारियों का अहसास है। 29 जनवरी के भगदड़ के शिकार श्रद्धालुओं और प्रयागराज कुम्भ के दौरान सोनभद्र, अलीगढ़ या अन्य जगहों पर महास्नान में आने और वापस जाने के दौरान जो श्रद्धाल सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके

करेगी। प्रश्न यह है कि इस पर राजनीति करना कितना उचित है। कहीं का वीडियो महाकुंभ से जोड़कर अफवाह फैलाने वाले लोग कौन? मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा सदस्य मनोज पांडेय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने अफवाहों का उल्लेख किया। सीएम ने कहा कि काहिरा, नेपाल, झारखंड व देश की अन्य दुर्घटनाओं को महाकुंभ व झूंसी के साथ जोड़कर दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का कार्य हो रहा है, ऐसा करने वाले आखिर कौन लोग थे। हर अच्छे कार्य का विरोध करना समाजवादी संस्कार मुख्यमंत्री ने शायरी सुनाने के बाद नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसा- बोला

अपराध चरम पर, बेसुध बिहार सरकारः तेजस्वी यादव

पटना। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुये कहा है कि प्रदेश में अपराध चरम पर है और सरकार बेसुध है। तेजस्वी ने एक बार फिर से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार



पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स एक पोस्ट शेयर किया है। तेजस्वी ने इसको लेकर क्राइम बुलेटिन जारी किया है। तेजस्वी ने

जनवरी माह की बिहार की अलग-अलग अपराध 137 की घटनाओं का जिक्र किया है। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा ,बेसुध है सरकार। बिहार में खून की बहार! बिहार में एनडीए की पांच पार्टियों के सौजन्य से चल रहे राक्षस राज में घटित जनवरी माह की चंद प्रमख घटनाएं। इसके बाद उन्होंने करीब 137 घटनाओं का जिक्र किया। जिसमें भोजपुर, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, रोहतास सहित कई जिलों के अपराधिक घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने इसके साथ ही एक तस्वीर साझा की है जिसमें लिखा गया है कि बिहार की हालत गंभीर., वजह है तीर...।

रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम



नई दिल्ली। बीजेपी ने दिल्ली के नए सीएम का नाम तय कर लिया है। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होंगी। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेगी। तो

आखिर कौन हैं दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता, और बीजेपी ने क्यों लगाई है इनके नाम पर मुहर। चलिए जानते हैं बता दें भाजपा विधायक दल की बैठक में आज शाम 7 बजे इसका औपचारिक ऐलान होगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के 11 दिनों बाद बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम होंगी। बीजेपी विधायक दल ने रेखा गुप्ता को नेता चुन लिया है। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को दोपहर 12.35 बजे रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेगी वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी सीएम रह चुकी हैं। 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और बाकी

मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी।

कार्यक्रम में 30000 मेहमानों के आने की संभावना है। बता दें कि सीएम पद की दौड़ में परवेश वर्मा और वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल था लेकिन अब रेखा गुप्ता का नाम सीएम के लिए तय कर लिया गया है। रेखा गुप्ता इस वक्त दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता का जन्म जींद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। उनकी पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई। इसी दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ीं और राजनीति

रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण

में सिक्रय हुई। रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी की सचिव और प्रधान भी रह चुकी हैं। हालांकि, अब उनके परिवार के लोग जुलाना की अनाज मंडी में आढ़त का काम करते हैं। रेखा गुप्ता महिला होने के साथ साथ बनिया भी हैं और इसलिए बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर दांव खेलने का काम किया है। दिलचस्प बात ये है कि रेखा गुप्ता बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होंगी हालांकि इससे पहले वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं लेकिन इस वक्त वो सीएम नहीं है इसलिए सभी बीजेपी-एनडीए शासित राज्यों में रेखा गुप्ता इकलौती सीएम होंगी।

राहुल ने पुणे कोर्ट का किया रुख, जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग सावरकर पर सच्चाई को लाएंगे सामने

से छूट मिल गई है। सावरकर पर राहुल गांधी के सवालों के चलते हर बार बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है और अब राहुल गांधी ने सावरकर के इतिहास को देश के सामने लाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने पुणे की एक विशेष एमपी,एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर मांग की है कि इसे मन ट्रायल में बदल लिया जाए

क्योंकि उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। राहुल गांधी ने मार्च 2023 में ब्रिटेन गए थे। इस दौरान लंदन में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में उन्होंने विनायक सावरकर को लेकर

कुछ तथ्य रखे थे जिसको लेकर को विनायक सावरकर के मामले में विनायक सावरकर के रिश्तेदार बडी राहत मिली है। उन्हें व्यक्तिगत पेशी सत्यकी ए सावरकर ने राहुल के



दर्ज की थी। पुणे की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के जरिए एक आवेदन दिया है। जिसमें उन्होंने सावरकर पर ऐतिहासिक तथ्यों के

रिकॉर्ड को सामने रखने के लिए मकदमे को समन टायल में बदलने की मांग

की है। राहल गांधी की तरफ से कहा

गया कि इस मामले में गहन और विस्तृत बहस की जरूरत है। सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है और न्याय के हित में यह जरूरी होगा कि इस मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए क्योंकि संक्षिप्त सुनवाई में मामले की सच्चाई सामने

नहीं आ पाएगी। राहल की याचिका में कहा गया है कि सावरकर के सच्चे योगदान की जांच इतिहास के जरिए ही की जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड अदालत के सामने लाया जाना

नई दिल्ली। विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक

(एफएमएम) में भाग लेने के लिए 20-21 फरवरी को जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बिहार

के निमंत्रण पर वह यह दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, जी-20 एफएमएम में विदेश मंत्री की भागीदारी से जी-20 देशों के साथ भारत की भागीदारी मजबूत होगी। इस महत्वपूर्ण मंच पर वैश्विक दक्षिण की आवाज को बल मिलेगा। विदेश मंत्री की एफएमएम के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। यह मीटिंग दक्षिण अफ्रीका की जी-20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित होने वाली पहली विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसका विषय श्एकजुटता, समानता, स्थिरताश रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका की जी-20 अध्यक्षता 1 दिसंबर, 2024 से शुरू हुई और यह 30

नवंबर तक जारी रहेगी। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पदभार ग्रहण करते समय इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण अफ्रीका को जी-20 अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, असमानता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भू-राजनीतिक अस्थिरता सहित कई संकटों का सामना कर रही है। दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की कि वे आगामी (जी20) विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेंगे। इस पर रोनाल्ड लामोला ने कहा कि ब्राजील से जी20 की अध्यक्षता संभालने के

लेने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे जयशंकर

बाद से, दक्षिण अफ्रीका ने कई मुद्दों से निपटने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाला बढता ऋण भी शामिल है। लामोला ने कहा, एकजुटता सामूहिक समस्या-समाधान को बढ़ावा देती है। हमारी जी20 अध्यक्षता केवल जलवायु परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए समान व्यवहार के लिए भी है, जो सभी के लिए एक समान वैश्विक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनका पालन करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए हम तैयार हैं।

चुनाव बीत चुका है, कानून–व्यवस्था पर ध्यान दे भाजपा : सिसोदिया

क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा की प्राथमिकताएं सिर्फ अरविंद केजरीवाल

और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) को अपशब्द कहना है। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने हाल ही में तिलक नगर में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का हवाला देते हुए शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर बुधवार को

नर्ड दिल्ली। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अपराधी इसलिए बेखौफ हैं



भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कहना चाहता हूं कि चुनाव बीत चुका है और अब उसे दिल्ली में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अपराधी इसलिए बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें पता है ।

महाकुंभ आई महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या,बाथरूम में मिली लाश, साथी मौके से फरार हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि

प्रयागराज। महाकुंभ में स्नान के लिए आई एक महिला की उसके साथ आए अज्ञात व्यक्ति ने बुधवार की सुबह कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। झुंसी थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि यह महिला एक पुरुष के साथ महाकुंभ आई थी और वह कुछ देर आराम करने के लिए आजाद नगर के एक मकान में रुकी थी। उन्होंने बताया कि मकान में पहले से किराएदार रह रहे हैं और जब वे बुधवार सुबह स्नानगृह में गए तो उन्होंने वहां महिला को मृत पाया। सिंह ने बताया कि महिला की किसी धारदार हथियार से गला रेतकर

महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिंह ने बताया कि महिला के साथ आया व्यक्ति फरार है। अधिकारी ने बताया कि महिला और उसके साथ आए व्यक्ति ने मकान में रुकने का अनुरोध करते हुए बताया था कि वे दिल्ली से आए हैं। सिंह ने बताया कि मकान मालिक कहीं दूर रहता है और मकान की देखरेख पड़ोस में दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति करता है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और फरार व्यक्ति की सीसीटीवी के जरिए पहचान की जा रही है।

तैयार, 24 और 25 फरवरी को होंगे कई कार्यक्रम पटना। बिहार में अगले हफ्ते खासा

राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना में रहेंगे। यह दौरा बिहार के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बारे में बताया कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में होंगे, जहां वह किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। साथ

ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार के किसानों की समृद्धि और कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर सकते



किसान भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में इकट्टा होंगे और पीएम मोदी किसानों की खुशहाली, समृद्धि और कल्याण कि इसके बाद, 25 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पटना आ रही हैं। वह इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित अलमुनाई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे से पहले, 24 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पटना आ रहे हैं। वह स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर पीएमसीएच के इस कार्यक्रम में शामिल

की बातें करेंगे। जायसवाल ने बताया

Editorial

The god is **Omnipresent**

God is omnipresent. Therefore, His company is available everywhere all the time. However, if someone is very keen on the company of God, He manifests in a 'murti' (idol). This is mostly true for temples, where God is worshipped routinely in a prescribed manner. But God even manifests in murtis kept in home or a photo of God, if He decides that someone deserves this favour. Many sadhus, genuine ones, carry their worshipable God in some form with them. I had the privilege of seeing a sadhu in a park take out His Lord's photo and he worshipped Him before eating his meal Lord Krishna has stated, "For the conqueror of self, who is blissfully peaceful in cold and heat, in pleasure and pain as well as in honor and dishonor also, he is accompanied by God." (The Bhagavad-Geeta 6.7)Before I go any further, let us understand our relationship with God. Lord Krishna states, "An eternal soul is my part only." (15.7) God is our Swami (Master) and we are His 'sevaks' (servants). God is prepared to give a lot to those who serve Him because He has so much to offer. But God is never attached to anyone. Lord Krishna says "I am similarly inclined towards all beings, no one is hateful for Me; and no one is dear. How ever, those who worship Me with devotion, they are in Me, and I am also in them." (9.29) God is not like a parent; we can only make a place in God's heart. Do you realize what this means? This is the only place where there is unmixed joy. What does a company of God feel like? God is watching us all the time. Obviously, His presence can be experienced subtly only, even though He may have manifested in a murti or a photo. Similarly, God communicates mainly in a subtle way except in a rarest or rare case like for a highly advanced devotee such as Sant Tulsidas. We get intuitions. How do we know that these are not our thoughts; the communication could only have come from God? For example, I pray for guidance and help in a medical matter. The answer comes, which could not have been known to me. My Lord has shown His 'kripa' (grace). Then, God uses mediums to communicate. These are people close to His devotees. They come forward and provide the needed information. In rare cases, God speaks in dreams or when we are not in deep sleep, generally around 4 AM. The timing is a big indicator that it is God, who has spoken, not what we have imagined. Whatever God states will also be corroborated in a scripture like the Bhagavad-Geeta. All this happens because a devotee of God has taken the 'chintan' (meditation) option. What does God communicate or what benefits do we derive from such communications? First of all, we begin to become peaceful. Because without peace no enjoyment is possible. If our minds are disturbed, we cannot enjoy even in the most comfortable circumstances. As God is the only source of real peace, not freedom from noise, we become entitled to it. 'Sukha' or genuine happiness follows even in not-so-opulent surroundings. This feeling leads to unmixed joy as our connection with God is strengthened by sustained practice. Our prayers for guidance and help will be answered. Progressively, God becomes the guiding light of our lives. Help, as needed, will become available, God finds mediums, who can provide such assistance. For example, a competent doctor will become available to treat us. It all sounds so easy; it is. Not only will we be healthy but the necessary energies of all kinds will be ours too. One will feel secure, comfortable, relaxed, good, etc. The best emotions like hope, satisfaction, patience and tolerance will become parts of our psyche. Our consciousness will become better, i.e. spiritual over some time. In short, life will become highly enjoyable. Worrying, sadness, depression and anxiety will be gradually replaced by superior emotions. It is up to us to choose between chintan about God or 'chinta' (worry) about material objects, goals, etc.

A Path to Personal Liberation

We are what we repeatedly do, said Aristotle... If we have a look at the dictionary meaning of habit, then it says 'something that you do often and regularly, sometimes without knowing that you are doing it:' To define it simply, habits can be described as involuntary actions. They are a kind of 'automatic behaviour' as it were, for one does not do them after much thought. There is no doubt in it that almost everyone in this world has one or other bad habit. Don't we all have? Like, many people have the bad habit of smoking. But, if you tell them that it is a bad habit, some of them will bring in a little bit of philosophy and some would try to support it with medical opinion also. They will say, "Smoking is very exhilarating. It is good for my brain because it brings me concentration." Others will say, "Smoking keeps my bowels free." Others still will confess that it

Little do most people that he who talks and realised, there isn't the

सम्पादकीय/विविध

realise that it is a bad habit that pollutes their physical system and the atmosphere and causes diseases like cancer. Similarly, some people have the habit of talking too much. They just can't keep quiet even for a couple of minutes. Little do these people realise that much breath and energy is wasted on useless talk. This could usefully be spent in silent meditation. But the problem is

talks is, today, considered as a smart, clever and wise person, and a person who talks less is thought to be lacking in general knowledge or to be deficient in the art of conversation! Such examples of bad habits can be multiplied, but, what we need to understand from these examples is that, in most cases, people do not realise that it is a bad or a harmful habit and where this truth is

strong desire to get freed from its grip and that is why some people philosophically say; This habit of mine will die only when I die. So what is the solution to get over one's bad habits? Is it practically possible? Yes! With a little effort and attention, it is indeed possible. To start with one needs great enthusiasm which is very essential for leaving bad habits. There is a well-known

proverb in English: "Well-begun is half done'. So, after realising that the habit which you have decided to give up is really bad, you should put up a brave and enthusiastic fight against this evil. From the very outset, call forth all your latent energies not only to cut its root and branch but also to destroy its seed, for if the seed remains, the tree is likely to grow up again. When a house is on fire, how promptly and energetically the inmates react? At that time, they are fully concentrated and they use all the means to extinguish the fire. Put your resolve into action immediately. Secondly, remove the words 'impossible', 'difficult, 'I cannot' etc. from your mind. These are the expressions of a weakling or a timid person. Cheer yourself up. Realize the truth that the evil habit is your own creation, you have given birth to it and nourished it to bring its growth and now you should not say with a weak will that it is difficult to control it. Always remember! habits are not your original nature; they are your second nature. You have acquired them and you say that you cannot give them up? You are their Master and you believe yourself to be their slave? 'Faith, it has been rightly said, "can move mountains and this your habit is only a molehill. Therefore rise and take up the bow of endeavour and become an instrument to the Divine to shoot this devil—your habit—for, God is with you as He always is on the side of the virtuous. But, remember! A mere wish or desire to eradicate evil is not enough You must have pure and strong will besides a definite aim and purpose. Wish or desire is a small, temporary ripple in the lake of mind but Will is the power that executes the desire to fulfilment. There is nothing impossible for a man of strong willpower to achieve. So let's make a resolve that we will liberate ourselves in the true

Budget is pro-growth but stability concern remains

uct) growth of 8 per investment requirecent plus for three ment of over Rs 100 consecutive years, the

is a bad habit that they

find hard to give up.

lakh crore to build the the Centre intended to

sync with this target, over five years comes prises. In this year's

(gross domestic prod- she had projected an to Rs 3800,000 crore budget, the corporate which is more or less tax rate on foreign close to the amount firms has been reduced from extant 40



2024-25 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on July 23, 2024, has all the ingredients to sustain the momentum during the current year as well. For the current year, she has proposed capital expenditure at Rs 1111,111 crore, which is 17 per cent higher than the revised estimate (RE) for FY 2023-24.In her Budget for 2019-20, she had laid a roadmap for catapult-

five years. Out of this, 39 per cent or Rs 39,00,000 crore was to come from the Centre and states each and the balance was Rs 22,00,000 crore from the private sector. The Centre's capital spend during the previous four years was 2020-21: Rs 439,000 crore; 2021-22: Rs 554,000 crore; 2022-23: Rs 750,000 crore; 2023-24: Rs 1000,961 crore. This adds up to Rs 2700,000 crore. the Indian Add to this Rs economy to US\$5 1111,111 crore for trillion by 2024-25. In 2024-25, the total

contribute. The Central government has states to boost their capital spend. During 2022-23, it provided them with 50-year Rs 100,000 crore interest-free loans. During 2023-24, such transfers were Rs 130,000 crore. For the current year, the transfers are kept at Rs 150,000 crore. To promote investment in the private sector, the Centre has reduced the corporate tax rate to 15 per cent for new manufacturing enterprises and 22 per cent for existing enter-

per cent to 35 per cent. With this and also been helping the assuming that private consumption/demand remains strong (a relief of around Rs 17,500/- in personal income tax or PIT resulting from the change in tax slabs under the New IT regime and increase in a standard deduction by Rs 25,000/- will give some boost) besides exports getting a leg up, courtesy rebound in the US economy, India could achieve growth even higher than 6.5 - 7per cent projected in the Economic Survey

side to it. This has to do with the fiscal deficit or FD (excess of total expenditure over total receipts). Sitharaman has set it at 4.9 per cent of the of 5.1 per cent fixed in the interim budget. This has been made possible due to a mammoth dividend of Rs transfer 210,000 crore by the Reserve Bank of India (RBI) to the Central Government from its operations during the FY 2023-24 which is Rs 130,000 crore higher than the provision of Rs 80,000 crore made in the interim budget. It won't be easy to achieve the 4.9 per cent target during the current year. This is because the gross tax revenue (GTR) target of Rs 3840,000 crore is over-ambitious and the budget assumes receipts of Rs 50,000 crore from disinvestment of government shares in PSUs, a program it has decided not to pursue. Even major expenditure items could get out of control as the year progresses. For instance, the 'fertilizer subsidy' is budgeted at Rs 164,000 crore during 2024-25. This is based on the as-

But, there is a flip

international price of fertilizers and raw materials used in their production seen during 2023-24 continues during the current year as well. It takes a small disruption in the global sup-GDP which is 0.2 per ply chain (given the cent less than a target current highly uncertain geo-political situation, this is quite likely), for this assumption to go haywire. That apart, to go down from 4.9 per cent to 4.5 per cent next year set by the FM her 2021-22 budget (this by itself is far more generous than FD of 3 per cent that was to be achieved in 2020-21 as per the amendment to the FRBM Act, 2018) can be daunting, all the more when the RBI is unlikely to repeat its bonanza/gift to the Center. During an interactive with the press, Sitharaman alluded to the Centre's plan to design fiscal trajectory in a manner such that from FY 2026-27 onward, its debt to GDP ratio starts declining. Sans target setting, this may not instil confidence.

Yet, she won't set the target as these are often missed. The Center's debt-to-GDP ratio is currently around 57 per cent against the 40 per cent mandated for 2024-25 under the sumption that the de-FRBM Amendment clining trend in the Act (2018).

राजधानी एक्सप्रेस में टीटीई ने अपने अन्य साथियों के साथ महिलाओं के साथ की मारपीट

के 12 सदस्य महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के बाद घर को वापस दिल्ली जा रहे थे, एक्सप्रेस में टीटीई ने रिश्वत की मांग की जिसके न देने पर टीटीई ने पैंट्री कार के 25 कर्मचारियों के साथ मिलकर एक ही परिवार के 12 सदस्यों पर हमला कर दिया सभी की पिटाई कर दी कुछ लोग घायल भी हो गए घायलों ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी पुलिस बरेली जंक्शन पर सभी यात्रियों को उतार कर 12 लोगो का मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए भेजा घायल हिमांशु खुराना ने बताया हम परिवार के 12 लोग नई दिल्ली के रहने वाले हैं 15

फरवरी शनिवार को प्रयागराज

के दर्शन करने चले गए । परिवार परेशानी हो रही थी मंगलवार को से राजधानी एक्सप्रेस से सभी लोग

बरेली। दिल्ली के एक परिवार महाकुम्भ स्नान करने गए थे कुंभ अयोध्या एक्सप्रेस से रिजर्वेशन था चले थे अयोध्या से बस के द्वारा बैठ गए लखनऊ से चलने के बाद बजाज, पार्थ बजाज पुत्र राहुल के बाद अयोध्या श्री राम नगरी ट्रेन कैंसिल होने के कारण आने में सभी लोग लखनऊ पहुंचे लखनऊ



कपूर निवासी राजपुर खुर्द थाना

मेहरौली नई दिल्ली , राधा खुराना

पत्नी हिमांशु खुराना,रीमा जैसी पत्नी

जीवलाल , उषा बजाज पत्नी अशोक

बजाज, कविता खुराना पत्नी सुनील खुराना, मानव खुराना पुत्र भारत भूषण, भारत भूषण खुराना पुत्र रामलाल खुराना, हिमांशु खुराना पुत्र सुनील खराना, राधा खुराना पत्नी भारत भूषण खुराना, रेनू सचदेवा पत्नी रमेश सचदेवा, राधा पत्नी दीपांशु खुराना इन सभी यात्रियों के साथ मारपीट की यात्रियों का आरोप है। की महिलाओं को लात घुसो से पीटा महिला राधा का आरोप है कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पेट में टीटी ने लात मारी थप्पड़ मारे। यात्रियों ने थाना जीआरपी पुलिस को सूचना दी बरेली जंक्शन की जीआरपी पुलिस ने सभी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया और घायलों का उपचार। पीड़ितों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय

त्यागी, राखी, राजकुमारी

आंगनबाडी कार्यकत्रियों ने किट

पर कार्य किया। इस मौके पर

छत्रपति शिवाजी की जयंती सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा मनाई गई

बरेली :: आज सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर सनातन धर्म सेवा समिति बरेली द्वारा महाराज छत्रपति शिवाजी की 351बी जयंती मनाई गई जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी श्री हर्ष अग्रवाल जी ने बताया कि यह महान छत्रपति शिवाजी की 351 की जयंती है छत्रपति



शिवाजी एक महान योद्धा थे और गोरिल्ला युद्ध नीति छत्रपति शिवाजी महाराज की ही देन थी जिसने मुगलों बअंग्रेजो के दांत खड़े कर दिए थे छत्रपति शिवाजी की 351बी जयंती के शुभ अवसर पर समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा बंश के संस्थापक थे भारत के इतिहास में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है इस अवसर पर समिति के कोषाध्यक्ष प्रमोद मित्तल जी महासचिव राजीव अग्रवाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल जी श्रीमती रागिनी अग्रवाल मनीषा वर्मा एस्प्रीत कौर आदि उपस्थित रहे ।

भारत सरकार के प्रतिनिधि ने आईडीए अभियान का लिया जायजा

बरेलीः राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के तीन ब्लाक फरीदपुर, क्यारा और आलमपुर जाफराबाद (भमोरा) में 10 फरवरी से सर्वजन दवा वितरण अभियान चल रहा है जो कि 25 फरवरी तक चलेगा` इसी क्रम में बुधवार को भारत सरकार के प्रतिनिधि डॉ. अमरेश द्वारा ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद के गाँव देवचरा का



निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डॉ. अमरेश द्वारा ग्रामीणों से फाईलेरिया की दवा खिलाये जाने संबंधी जानकारी ली व ग्रामीणों से अपील की कि वह फाईलेरिया रोधी दवा अवश्य खायें क्योंकि क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप काफी है और फाईलेरिया (हाथी पाँव) बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है। इसके साथ ही यहाँ फाईलेरिया के मरीज पाये गये हैं ` उन्होंने स्वास्थ्य दवा प्रदाताओं को निर्देश दिए कि आइवरमेक्टिन दवा ऊँचाई के हिसाब से खिलाई जाती हैं इसलिए सही लाभार्थी की सही लम्बाई नापकर दवा खिलाएं उन्होंने कहा कि अभियान के तहत तीन दवाएं एल्बेंडाजोल, डाईइथाइल कार्बामजीन और आइवरमेक्टिन खिलाई जा रही हैंं दवा अवश्य खाएंं इसके साथ ही उन्होंने फाईलेरिया ग्रसित मरीजों का हालचाल लिया व उन्हें लगातार पांच वर्ष तक हर वर्ष 12 दिवसीय डाईइथाइल कार्बामजीन (डी.ई.सी.) टेबलेट खाने का कोर्स पूरा करने की सलाह दी जिससे कि वह पूर्ण रूप से फाईलेरिया से स्वयं, परिवारीजनों व पास-पडोसियों को बचा सकें निरीक्षण के समय राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. प्रशान्त रंजन, भमोरा सी.एच.सी. के प्रभारी डॉ विवेक कुमार, ए.आर.ओ. नागेन्द्र, मलेरिया निरीक्षक गुलशन गुप्ता बी.पी.एम. नीरज तथा डब्ल्यू.एच.ओ. संस्था के राज्य प्रतिनिधि डॉ. राहुल व ब्लॉक प्रतिनिधि श्री संदीप मिश्रा, ए.एन.एम. मंजू वर्मा व क्षेत्र की आशा आदि मौजूद रहे।

चयनित खिलाड़ियों का स्वागत

चांदपुर । क्षेत्र में अंडर-19 क्रिकेट जिला स्तरीय टीम के लिए चांदपुर – तहसील क्षेत्र से 15 खिलाडियों का चयन किया गया। सभी चयनित खिलाडियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वर्ण विक्रेता गोविंद मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने तथा खिलाडियों में खेल के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिए के लिए अंडर—19 क्रिकेट जिला स्तरीय टीम के सिलेक्शन के लिए चांदपुर तहसील क्षेत्र के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। समिति के आह्वान पर लगभग ७० खिलाड़ियों ने अपने चयन के लिए भागीदारी की। जिनमें से कुल 15 खिलाड़ियों का ही चयन हो पाया, जिन 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है ।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11 असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखुँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

के सभी 12 लोग हैं सभी के

क्षमता संवर्धन के लिए कार्यशाला का आयोजन त्यागी, रितु चौधरी, शालू, आंचल आदि शामिल रहे, वहीं अंजली



हल्दौर । प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित वंडर बॉक्स आंगनबाडी कार्यकत्रियों एवं नोडल शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। आंगनबाड़ी सेंटरों में पढ़ने वाले नोनीहालों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए आंगनबाडी कार्यकत्रियों एवं कक्षा एक को पढ़ाने वाले नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी के चलते बीआरसी कार्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी अलका अग्रवाल की देखरेख में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में प्री प्राइमरी शिक्षा से संबंधित वंडर बॉक्स आंगनबाडी एवं नोडल शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में सभी 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लर्निंग बॉय डूइंग के अंतर्गत शिक्षकों एवं आंगनबाडियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आईआईटी गांधीनगर द्वारा बनाई गई वंडर बॉक्स किट के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्रियों को प्रयोग करने के बारे में सभी प्रतिभागियों को जानकारी दी गई साथ ही कुछ गेम सुडोकू, परिवार क्यूब, पैक बोर्ड, जोड़े बनाओ, व्रत पहली. ग्रेड. प्यासा कौवा. संख्या पहचान, बच्चों को कैसा सिखाएं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी

अलका अग्रवाल ने कहा शिक्षकों को शासन की मंशा के अनुरूप आगनबाड़ी के साथ समन्वय बनाकर प्री प्राइमरी शिक्षा को सुधार कर उन्हें राष्ट का भावी और कर्णधार बनाना है। एआरपी संजीव शर्मा ने कहा कि नौनिहालों को आंगनबाडी स्तर पर ही उनके आयु वर्ग के लिए निर्धारित दक्षताओं को दिया को दिया जाना आवश्यक है जिससे कि वह कक्षा एक से ही शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में मोहम्मद जावेद, गुलशन सिंह, टीकम सिंह, आरिफ

शशांक कौशिक लिपिक, संध्या चौहान, तरुण सिंह, लेखराज सिंह, वैभव त्यागी, विपिन कुमार आदि बीईओ कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। उधर कार्यशाला में उपलब्ध कराया गया लजीज भोजन स्टाफ के बीच चर्चा का विषय रहा। दरअसल आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों में भोजन की गुणवत्ता घटाकर व्यवस्थापकों द्वारा अपनी जेब का वजन बढा लिया जाता है लेकिन हल्दौर में कार्यशाला के दौरान जो भोजन उपलब्ध कराया गया वह गुणवत्ता और स्वाद के मामले तारीफ बटोरता दिखा। खाना खाने के बाद शिक्षकगण और आंगनबाडी कार्यकत्री इसके स्वाद की चर्चा केवल कार्यशाला ही नहीं बल्कि इसके बाद अन्य स्टाफ और साथियों

से भी करते देखे गए। सलीम, क्षमा शर्मा, पल्लवी कांवड़ियों की सुरक्षा हेतु मोटा महादेव मोदर गया पुलिस सहायता शिविर



बिजनौर / मंडावली । आस्था का केंद्र मोटा महादेव शिव मंदिर पर पुलिस सहायता केंद्र शिविर लगाया गया। कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के तत्वाध ान में लगाया गया पुलिस सहायता



केंद्र शिविर लगाने का उद्देश्य कावड़ियों की सुरक्षा का भाव जागृत करना थानाध्यक्ष राम प्रताप सिंह प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मंडावली क्षेत्र में आस्था का अटूट केंद्र प्राचीन

पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस सहायता केंद्र शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस सहायता केंद्र शिविर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाया गया। पुलिस सहायता केंद्र शिविर के बारे में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने बताया कि यह शिविर कावड़ियों की सुरक्षा के भाव से लगाया गया है। वही मोटा महादेव मदिर के पुजारी शशि नाथ उपाध्याय ने कहा कि मंडावली थानाध्यक्ष राम प्रताप सिंह कावड़ियों की सेवा भाव में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और हरिद्वार से कावड़ में जल

सेवा पुलिस सहायता केन्द्र याना मण्डावली जनपद बिजनोर भाव करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वह बढ़ चढ़कर शिव भक्तों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। आस्था के अटूट केंद्र प्राचीन मोटा महादेव मंदिर पर हरिद्वार से जल लेकर भारी संख्या में कावडिये शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और अपने तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि की महादेव से कामना करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मोटा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या

में शिवभक्तों की भीड़ भी

केंद्र शिविर। पुलिस सहायता मोटा महादेव शिव मंदिर प्रांगण लेकर लौट रहे कांवड़ियों की देखने को मिलती है। नकली सिम कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी का मामला दर्ज

स्योहारा। थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी कर अपराधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, ग्राम शाहपुर खेड़ी निवासी अजीम पुत्र नसरुद्दीन ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को अपने सिम कार्ड की पोर्टिंग करवाई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मुजाहिदपुर निवासी शादाब पुत्र बूनियाद अली ने उनकी आईडी पर फर्जी सिम कार्ड निकाला और इसे किसी अपराधी को सौंप दिया। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता की तस्वीर लेकर उसकी आईडी से फर्जीवाड़ा किया। अजीम ने यह भी बताया कि आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि उनकी फोटो डिलीट कर दी गई है और धोखाधड़ी से उनका सिम कार्ड अपराधी को सौंप दिया। शिकायतकर्ता ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।

साप्ताहिक बाजार बंद कराने की मांग

चांदपुर । व्यापार यूनियन जामा मस्जिद के व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को ज्ञापन देकर नगर में लगने वाले साप्ताहिक शनि बाजार को बंद नहीं कराए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि प्रशासन ने नगर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को बंद कराने के आदेश जारी किए हैं। जिससे छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों के कारोबार पर भारी प्रभाव पड़ेगा। पूर्व उपजिलाधिकारी रितु रानी द्वारा बाजार को अन्य स्थान पर ले जाने को कहा था। लेकिन दुकानदारों एवं फड़ वालों की आजीविका को ध्यान में रखकर बाजार व्यवस्थित तरीके से सड़क के एक साइड पर फड़ लगाने के आश्वासन पर उपजिलाधिकारी ने बाजार वालों को राहत दी थी। व्यापारियों ने नगरपालिका परिषद अध्यक्ष से दुकानदारों एवं फड़ वालों को दो से तीन माह का समय देकर बाजार व्यवस्थित लगवाने की मांग की है। ज्ञापन देने में अध्यक्ष अतीक कुरैशी, मोहम्मद उरमान, फिरोज अहमद आदि – मौजूद रहे।

एसडीएम व सीओ ने कांवड़ मार्गों का किया भ्रमण

मुरादाबाद। उपजिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने धामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आगामी कांवड पर्व के संबंध में कावड मार्गों का भ्रमण कर रूट डायवर्जन, बैरिकेडिंग, पिकेट स्थल आदि को चेक किया। उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दुर्गा विहार कालोनी से बाईपास को होकर बड़े वाहन गुजरेंगे, यहां से सीधे नगीना चौराहा की तरह कोई भी बड़ा वाहन नहीं जाएंगा। धामपुर से होकर गुजरने वाले बाहरी वाहनों के रूट डायवर्ट का प्लान 19 फरवरी से प्रभावी हो गया है। धामपुर तहसील क्षेत्र की सीमा से होकर शिवभक्त बड़ी संख्या में कांवड़ लेने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार रवाना होते हैं। काशीपुर, हल्द्वानी, बरेली, पीलीभीत, संभल, मुरादाबाद्, रामपुर, शाहजहांपुर समेत अनेक जनपदों के शिवभक्त हरिद्वार से कांवड लेकर धामपुर तहसील क्षेत्र की सीमा से होकर अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। उपजिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर सर्वम सिंह ने अधिनस्थ अधिकारियों को साथ लेकर सभी व्यवस्थाओं

बिजनौर में जाकर बिजनौर स्टेडियम में अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे

बाजी जीतने को खिलाड़ियों ने लगाया दमखम

बिजनौर । विवेक विश्वविद्यालय में चल रही चार दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन कबड्डी, चौस, बैडमिंटन, खो खो एवं बॉलीबाल की प्रतियोगिता हुई, जिसमे खिलाड़ियों ने दमखम लगाया। कबड्डी में बिंद्रा और चौस प्रतियोगिता में मैरी कॉम हाउस ने फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का पहला मैच मैरी कॉम हाउस एवं राठौर हाउस की बीच हुआ। जिसमें राठौर हाउस 6 अंकों से विजयी रहा, सिंधू हाउस ने भास्कर हाउस को 20 अंकों से हराया। राठौर हाउस ने बिन्द्रा हाउस को 7 अंकों से परास्त किया। बालक वर्ग एकल में क्वाटर फाइनल में टाइगर, लायन और ईगल ने अपनी जगह बना ली है। बैडमिंटन के बालिका वर्ग एकल में पैंथर, टाइगर, लायन और ईगल ने क्वाटर फाइनल में प्रवेश ले लिया है। बॉलीबाल प्रतियोगिता में सिंधू हाउस को चोपडा हाउस ने 2–0 से हराया। वहीं राठौर हाउस ने भाकर हाउस को 2–0 से हरा दिया। बिन्द्रा हाउस ने चोपडा हाउस को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। वहीं भाकर हाउस को मैरी कॉम हाउस को 2-0 से परास्त किया। बैडमिंटन के बालक वर्ग डबल में क्वाटर फाइनल में पैंथर और ईगल के बीच होगा तथा एलीगेटर और पैंथर और ईगल—लॉयन का होगा। बालिका वर्ग डबल में सेमिफाइनल में ईगल और पायथन तथा एलीगेटर और पैंथर ने अपनी जगह निश्चित कर ली है। खो-खो प्रतियोगिता में बिन्द्रा हाउस को सिंधू हाउस ने 2 प्वाइंट से हरा दिया। वहीं मैरी कॉम हाउस ने राठौर हाउस को 04 अंकों से परास्त कर दिया। सिंधु हाउस एवं भाकर हाउस में 07 अंकों से भाकर हाउस विजयी रहा। वहीं राठौर हाउस एवं चोपड़ा हाउस में चोपड़ा हाउस 03 अंकों से विजयी रहा। चौस प्रतियोगिता में मैरी कॉम हाउस एवं चोपडा हाउस ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। मौके पर डॉ. मुकुल कुमार, डॉ. राजीव चौधरी, डॉ. सौरभ, डॉ. रंगानाथन, डॉ. दीप्ती डिमरी, डॉ. सर्वेश शीतल, डॉ. संजय त्यागी, डॉ. देबाशीष, डॉ. मीना, प्रांशु कुमार, डॉ. रिजवान अहमद, डॉ. विशाल चौहान, ईला सिंह, विश्वजीत, आदि का विशेष सहयोग रहा।

हत्या में शामिल दो अन्य युवक भी गिरफ्तार, चापड़ बरामद

मुरादाबाद। पुलिस ने हर्ष वर्मा की हत्या के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चापड भी बरामद कर लिया। नगर के मुहल्ला कायस्थान निवासी हर्ष वर्मा पुत्र राकेश वर्मा का शव 14 फरवरी को ग्राम स्याऊ में सेवानिवृत्त होमगार्ड लेखराज के मकान में बोरे में मिला था। मृतक के भाई शुभम वर्मा ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसके भाई हर्ष वर्मा को लवी पुत्र लेखराज घर से बुलाकर ले गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर लवी व उसके पिता लेखराज व अन्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस ने लवी उर्फ अवनीश पुत्र लेखराज निवासी ग्राम स्याऊ को हत्या में प्रयुक्त चापड़ के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने लवी की निशानदेही पर भूपेन्द्र पुत्र आनन्द स्वरूप निवासी विवेक नगर, तुषार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम इस्माईलपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया कि लवी व हर्ष आपस में दोस्त थे, लवी हर्ष के फोन से एक लड़की से स्नैपचौट से बात करता था, जिसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हर्ष के फोन में थी, लवी ने कई बार वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन हर्ष ने डिलीट नहीं की, 13 फरवरी को लवी हर्ष को अपने घर ले गया, वहीं पर हर्ष का दोस्त आदित्य राठी पुत्र ह्क्म सिंह निवासी ढाली बाजार व तुषार पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम इस्माईलपुर भी वहां आ गए। चारों ने बैंठ कर शराब पी। इसी दौरान लवी ने हर्ष से अपने मोबाइल से वीडियो डिलीट करने को कहा।

किशोरियों को मुख्य धारा मे लाने हेतु

पृथ्वीराज पर नवनिर्मित मंदिर में तीन दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आरंभ निकाली भव्य शोभायात्रा

झाब्रुआ/पारा। नगर के पुरातन पृथ्वीराज नदी के तीर पर मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित शिवालाय का त्रिदिवसीय महोत्सव बुधवार को बैंड बजे के साथ कलश एवं शोभायात्रा के साथ प्रारम्भ हुआ।कार्यक्रम के मुख्य यजमान गेंदालाल प्रजापत तथा गौरव डोडिया बने। मंदिर समिति के कार्यकताओं ने बताया कि प्रथम दिवस नगर के श्रीराम मंदिर से एक भव्य शोभायात्रा कलश यात्रा के रूप में प्रारंभ हुई। जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुई पृथ्वीराज नदी पर स्थित मंदिर प्रांगण पर पहुंची। इस दौरान नगर में शोभायात्रा

शैलेन्द्र राठौर

जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर में पीपलखूंटा धाम के संत



स्वागत किया गया। शोभायात्रा दाड़ की वालो बाबा महंत

हाटकेश्वर धाम सेमलिया के संत कानूराम महाराज विशेष रूप से उपस्थित थे। शोभायात्रा में बालिकाएं अग्रिम पंक्ति में कलश लेकर चल रही थी। उनके पीछे श्री शिव परिवार का विग्रह एक झांकी के रूप में विराजित था।शोभायात्रा के मंदिर प्रांगण पहुंचने पर श्रीराम चरित मानस का अखण्ड परायण प्रारम्भ हुआ। पहले दिन पंचांग कर्म, अग्नि स्थापन, जलाधिवास, फलाधिवास, पत्राधिवास तथा पुष्पाधिवास का कार्यक्रम हुआ। दूसरे दिन

राम चरित मानस के अखंड

परायण पूणार्हुति के साथ देवी

देवता का पूजन यज्ञ महास्नान

दयारामदासजी महाराज और

अभिषेक न्यास आदि का कार्यक्रम होगा ' तीसरे दिन सभी देवी देवताओं का पूजन प्राण प्रतिष्ठा पूजन शिखर कलश स्थापना पश्चात महाप्रसादी का आयोजन रखा गया हे ' सभी धार्मिक विधि विधान पंडित संजय शर्मा के मार्गदर्शन में यज्ञाचार्य पंडित राहुल शर्मा उज्जैन पंडित अंतिम श्रीकृष्ण त्रिवेदी नानपुर के के सानिध्य में सम्पन्न होगी ' इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में नगर की धर्म प्रेमी जनता उपस्थित थी ' मंदिर समिति ने सभी धर्मप्रेमी जनता से अपील की हे कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कर इस पुनीत

कराया एक्सपोजर विजिट खबर श्रावस्ती उत्तर प्रदेश किशोरियों, महिलाओं को जागरुक प्रकार से अपनी समस्याएं दर्ज करा रिपोर्ट देवी पाटन मंडल ब्यूरो प्रेमचंद

श्रावस्ती। आदित्य बिड़ला किशोरियों को शिक्षा की मुख्य धारा



कैपिटल फाउंडेशन के सहयोग से एक्शनएड द्वारा संचालित नई पहल परियोजना के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में विद्यालयों की मूल भूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ एस एम सी, ग्राम प्रधान,

जाती रही है इसके अलावा रैलवे

स्टेशन, बस स्टैंड पर

अहसायजनों के किये कम्बल,

में लाने पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में विकास खंड जमुनहा व सिरसिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की किशोरियों को जनपद के मुख्यालय भिनगा स्थित महिला थाना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महोदया, जिला बेसिक शिक्षा का एक्सपोजर विजिट कराया गया अधिकारी, जिला समन्वयक बालिका जहां किशोरियों ने महिला थाना शिक्षा, वार्डन शिश किरन जी एक्शन प्रभारी पुष्प लता जी से मुलाकात एड से गुलिस्ता आरा तारिक अहमद कर महिलाओं किशोरियों के लिए प्रेरक दिनेश कुमार यादव, सहित 50 कौन कौन सी सहायता व किस किशोरियां व शिक्षिका उपस्थित रहीं।

कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत सकती है जाना साथ ही मिशन बनाने व हाशिए पर रह रहे किशोर शक्ति कार्यक्रम व शासन की योजनाओं व अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही कार्य व दियत्व के बारे में जाना उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जा कर बी० एस० ए० सर से मुलाकात कर शिक्षा विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी ली अपर जिलाधिकारी महोदय से संवाद किया और अपने सवालों को रखा और अपने भविष्य को लेकर कई सवाल सर से पूछे जिसपर अपर जिलाधिकारी सर द्वारा सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए गए और अपने जीवन की बात भी किशोरियों को विस्तार से बताया उपरोक्त गतिविधि में थाना प्रभारी

स्वंयसेवियों ने जगाई स्वच्छता की अलख,चलाया स्वच्छता अभियान

रिठौरा।श्री पी 0 सी0 आजाद इंटर कॉलेज बिहार कला के स्वयंसेवको द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर के पांचवें दिन प्राथमिक स्कूल धौरेरामाफी के पास स्वच्छता का कार्यक्रम के अंतर्गत गांव की गलियों एवं नालियों को साफ करते हुए गन्दी से पनपने वाले मच्छरों एवं जानलेवा बीमारियों के विषय में ग्रामीणों को जागरूक किया । शिविर के दूसरे सत्र में कालेज परिसर में एक स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें डॉक्टर भारत गंगवार ने स्वयंसेवको को आकस्मिक चिकित्सा के समय मरीज को पी0 सी 0आर 0तथा



प्राथमिक उपचार आदि कैसे करें ,के सन्दर्भ में जानकारी दी । शिविर मै आए डॉक्टर भारत गंगवार को कार्यक्रम अधिकारी जलज सक्सेना ने स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित किया ।इस दौरान शिक्षिका आरती पांडे ,भारती माला, शालिनी सक्सेना ,हेमपाल का विशेष सहयोग रहा कार्यक्रम का संचालन ,कार्यक्रम अधिकारी जलज सक्सेना ने प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार के निर्देशन में किया ।

परम पूज्य माधवराव सदाशिव राव गोलकर जी की जयंती कार्यक्रम आओ

जिला संवाददाता राकेश गुप्ता

शामली विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध नगर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघचालक प० प० माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया गया कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ,आचार्य गण व बालिकाओं ने छत्रपति शिवाजी एवं गुरु जी के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर किया। विद्यालय की शिक्षिका नीलम रानी, बालिका मानवी व अदिति ने छत्रपति शिवाजी व गुरु जी के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने बालिकाओं को दोनों महापुरुषों की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा की छत्रपति शिवाजी सिंह के समान वीर , राजनीति में निपृण



शस्त्रों में पारंगत,मातृभूमि से प्रेम करने वाले थे माता जीजाबाई ने उनकी नस-नस में देश भक्ति की धारा प्रवाहित की थी साथ ही प० पू० माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्राणि शास्त्र के ज्ञाता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दूर-दूर तक प्रचार प्रसार करने वाले सच्चे राष्ट्रभक्त थे। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर देशभक्ति का प्रण लेना चाहिए। आज उनके जन्म दिवस पर हम यह संकल्प ले कि हम अपने देश के प्रति तन-मन-धन से समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ आचार्य संजीव कुमार, संदीप कुमार, कविता रानी अनीता रानी, अमित कुमार, रवि कुमार, कपिल कुमार, मोहित कुमार विकास कुमार धर्मेंद्र कुमार, राहुल कुमार, उपासना रानी, रेनू रानी, सुरभि रानी, वंदना रानी, गीता रानी आदि आचार्य/आचार्या उपस्थित रहे।

पटेल तिराहे से लेकर अशोक तिराहा तक प्रतिदिन लग रहा

डग्गामार वाहनों से अतिक्रमण

श्रावस्ती। डग्गामार वाहनों से बढा अतिक्रमण। पटेल तिराहे से लेकर अशोक तिराहा तक प्रतिदिन लग रहा है जाम। भिनगा मख्यालय स्थित पटेल तिराहे से लेकर तहसील तिराहा, अशोक तिराहा से पावर हाउस तक डग्गामार वाहनों का जमावडा रहता है। ऐसे में प्रतिदिन जाम

आशंका बनी रहती है।

स्वच्छभारत अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन खबर श्रावस्ती उत्तर प्रदेश रिपोर्ट देवी पाटन मंडल ब्यूरो प्रेमचंद

श्रावस्ती कमांडेंट, 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, भिनगा के दिशा-निर्देशन में ह्यडीह्न समवाय, तरुसमा के उप निरीक्षक ओ. राजेन सिंह के नेतृत्व में बाबा जबदाह इंटर कॉलेज, घुड़दौरिया में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम



भाग लिया और स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए परिसर की साफ-सफाई की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था । इस अवसर पर उप निरीक्षक ओ. राजेन सिंह ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है । उन्होंने सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ दिलाई । विद्यालय प्रशासन और छात्रों ने एसएसबी जवानों के इस प्रयास की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग देने का संकल्प लिया ।

हरियाणा समाज प्रमुख नत्थूराम शमो परिवार ने एक कन्या का विवाह करवाकर की मानवता मिसाल कायम

क्यूं न लिखूं सच राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ टाटीबंध स्थिति भारद्वाज

निवास रायपुर में बड़ी धूम धाम से किया एक कन्या का विवाह आयोजन,यह अनोखा विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। नत्थूराम शर्मा एवं उनके परिवार के द्वारा बड़े धूम-धाम से भव्य रूप से एक कन्या का कन्यादान कर विवाह संपन्न किया गया! इस भव्य शादी आयोजन में सभी आगंतुक अथितियों ने एवं समाज के लोग साक्षी बने ततपश्चात सम्पूर्ण विधि विधान से प्रशिक्षित ब्राह्मण द्वारा ये शादी संपन्न करवाई गई । इस कन्या की शादी में सम्मिलित होकर भारद्वाज परिवार के साथ समाज के लोग भी पुण्यलाभ के भागी बने! नत्थूराम शर्मा और उनका परिवार इस कन्या विवाह को धर्म के साथ जुड़कर सनातन संस्कृति के प्रसार और अन्य समाज मे समर्थवान जनों के लिए जन जागरूकता का एक अहम प्रयास मानते हैं। ये परिवार सामाजिक और धार्मिक सेवा को लौकिक प्रलौकिक दोनों जगह उन्नति के

साथ आत्म संतुष्टी भी मानते हैं! बाराती भोज आदि वैदिक कार्यों जरुरत की समाग्री वितरित की नत्थूराम शर्मा एवं समस्त परिवार की पूर्ति क्रमशः की गई। आयोजन द्वारा आयोजित इस शादी में रायपुर के प्रथम और अंतिम चरण में सहित कई अन्य शहर से पधारे भोजन की व्यवस्था की गई थी,

जिसमें आगंतुक बारातीयों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। इस विवाह मे कन्या रायपुर निवासी है और वर पक्ष राजिम के पास गांव से बारात आई थी,इस कन्या के विवाह के आयोजक नत्थूराम शर्मा परिवार द्वारा निरंतर रूप से रायपुर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानो पर अनेकों आयोजन किये जाते है जैसे ब्लाइंड पाठशाला हीरापुर में विधार्थियो को समय समय पर भोजन, कपडे के साथ अन्य

दवाइयां भी वितरित करते आ रहे है इसके साथ एम्स हॉस्पिटल के पास मरीजों के लिए वाटर कूलर की भी व्यस्था की गई है इसके साथ नथुराम शर्मा जी एवं इनका परिवार द्वारा टाटीबंध व रायपुर के अलग-अलग स्थानो पर सामाजिक,धार्मिक व कई मंदिरो व संस्थाओं से जुड़कर समय समय पर कई धार्मिक आयोजन में सहयोगी बन किये जाते हैं,, ऐसे में इस कन्या का विवाह का आयोजन धर्म और समाज के लिए काफी संतोषजनक एवं हितकारी रहेगा । नथुराम शर्मा ने बातचीत में बताया कि वे आगे भी धर्म और समाज के लिए ऐसे ही धार्मिक एवं जनसेवा के कार्यों हेतु तत्परता से लगे रहेंगे इन कार्यों में इनकी धर्मपत्नी और पूरा परिवार मुख्य रूप से इनका सहयोगी बनता है नत्थूराम शर्मा कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में अध्यक्ष और संरक्षक

आगूंतको महेमानों ने बढ़-चढ़कर अपनी उपस्थिति दी।शादी के दौरान सर्वसमाजों के प्रमुख बंधुओं एवं अनेकों गणमान्य सम्माननीय जन जगदीश शर्मा, चरण शर्मा, अशोक शर्मा,सोनू शर्मा,राजेश शर्मा,अजीत शर्मा,बजरंग शर्मा, अशोक भारद्वाज,हरिओम शर्मा, वेदपाल शर्मा,नरेश चौधरी, कुलदीप चौधरी,रोमी चौधरी, लीलाराम चौधरी, जगदीश सिंह भामरा व अन्य इस अवसर पर पहुंचे!

तत्पश्चात सात फेरे ,कन्या दान,

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई सम्पन्न

रिपोर्ट सत्यम शर्मा बरेली,

फरवरी।जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कर, गत बैठक में दिए गए निदेशों के अनुपालन, दवाइयों की उपलब्धता, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, ५ँल्ला, ई-संजीवनी, ५ुं मोबिलाइजेशन, अइऌअर्, जननी सुरक्षा योजना, आशा मानदेय भुगतान, आरसीएच पोर्टल पर डाटा फीडिंग तथा कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, फाइलेरिया आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। विगत बैठक में दिये गये निदेशों के क्रम में

जिलाधिकारी ने पूछा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकत गर्भवती महिलाओं की सूची एमओआईसी को प्राप्त हों चिकित्सिय सविधा उपलब्ध करते हुए संस्थागत प्रसव कराया जाये और सरकारी योजनाओं का लाभ दिये



गयी है अथवा नहीं। सभी ने अवगत कराया की प्राप्त हो गयी है। जिलाधिकारी ने समस्त को बेहतर

जाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जनपद में 10 नये डिलवरी प्वाइंट बने हैं, जिनमें से 08 डिलवरी

प्वाइंट पर्णतः सिक्रय हों गए है। बिथरीचैनपुर में विद्युत कनेक्शन सम्बंधी समस्या थी उसका भी निदान हों गया है अवशेष प्वाइंट मुड़िया जागीर में भी शीघ्र प्रसव कराये जाने आरम्भ कर दिये जायेंगे। बैठक में निर्देश दिये गये कि एचआईवी/ सिफलिस की नियमित जांच कराते रहे और यदि किट या किसी चीज की कमी है तो ले लें। आशाओं की असक्रियता की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 3 निष्क्रिय आशाये और चिन्हित की गयी है तथा ७ आशाओ द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया है उक्त के अतिरिक्त बताया गया कि जौहरपुर हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर नियुक्त डॉ वंशिका विगत कई निरिक्षण पर

अनपस्थित पायी गयी है और मीटिंगो में भी नहीं आती है, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें हटाने और उनके स्थान पर व बाकरगंज में डाक्टर नियुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्देश दिए गए कि संस्थागत प्रसव कि संख्या जिन ब्लाको में कम है वहाँ के एमओ आईसी आशाओं के माध्यम से लोगों को संस्थागत प्रसव कराने हेतु जागरूक किया जाये। वैक्सीनेशन हेतु मना करने वाले परिवारों को जागरूक किये जाने कि समीक्षा में पाया गया कि मीरगंज, रामनगर व बरेली में अच्छा कार्यक्रम हुआ है अन्य ब्लाको से वैक्सीनेशन कराने हेतु लोगों को जागरूक किया जाने के निर्देश दिए रहे।

मात् वंदना योजना में अब आईसीडीएस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। बैठक में टीबी रोगियों को प्रथम किस्त दिये जाने की भी समीक्षा की गयी , बैठक में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम व फाईलेरिया कि समीक्षा कि गयी और पाया गया कि फरीदपुर के दो गावों में फाईलेरिया के केस पाए गए है वहाँ विशेष रूप से सतर्कता बरतने और लोगो को दवा लेने के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए बैठक में मख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह सहित समस्त सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित

गए। बैठक में बताया गया कि

प्रयागराज द्वारा आयोजित 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित

खबर श्रावस्ती उत्तर प्रदेश रिपोर्ट श्रावस्ती संवाददाता अरविन्द कुमार

श्रावस्ती विकासखंड जमनहा के अंतर्गत अतिक्रमण मल्हीपुर चौराहे से भिनगा मुख्यालय को जाने वाली रोड पर सड़क की पटरी पर ढाबली टीन सेट रखकर

मल्हीपुर चौराहे पर

अतिक्रमण हटाने की मांग

अतिक्रमण कर लिया है आने जाने में छोटे बड़े वाहन को विशेष परेसानियां होती है। पूर्व मे उप जिलाधिकारी जमुनहा द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया था लेकिन दुकानदारों ने दोबारा अतिक्रमण कर लिया है जिला मुख्यालय



कारण काफी आवागमन और ट्रैफिक रहती है इसलिए क्षेत्र के लोगों ने रोड के पटरी के किनारे ढाबली व टीन सेट रखकर अतिक्रमण किया है उसे हटाने के लिए जिला अधिकारी श्रावस्ती से मांग किया है।

जिला संवाददाता राकेश गुप्ता शामली माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2025 की हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा

की तैयारियों के सम्बन्ध में आज जिला पंचायत के सभागार में जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द कुमार चौहान की अध्यक्षता में जनपद में निर्धारित 35 परीक्षा केन्द्रों के सभी केंद्र व्यवस्थापक/ बाह्य

व्यवस्थापक/स्टेटिक मजिस्ट्रेट/ सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा जोनल मजिस्ट्रेट की संयुक्त रूप से बैठक आहृत की गयी।आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित को पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहते हुए वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा को नकलिवहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के कड़े निर्देश

दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है इसलिए सभी संबंधित अपनी नैतिक जिम्मेदारी कि



इस वर्ष भी परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से नकलिवहीन संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में अन्य परीक्षाएं भी सकुशल संपन्न हुई है, अतः परीक्षा के दृष्टिगत दिये गये दायित्वों के निर्वाहन किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन,

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,उपकरणों सहित पूर्ण वर्जित हैं। इसके लिए प्रॉपर चेकिंग करनी है। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक जनार्दन सिंह शाक्य व अमित मलिक

जी द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट की लिखित परीक्षाएं जनपद में निर्धारित 35 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में प्रथम पाली 8:30 से 11:45 व द्वितीय पाली 2:00 बजे से 5:15 बजे तक दिनांक 24-02-2025 से 12-03-2025 के मध्य संपन्न होगी जिसमे हाईस्कूल के 12265 छात्र/छात्राएं तथा इण्टरमीडिएट के 12123छात्र/छात्राएं दोनों परीक्षा में कुल 24388 निर्धारित 35 परीक्षा केन्द्रों पर

जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है।जनपद स्तर पर परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक शामली में कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गयी है एवं सभी 35 परीक्षा केन्द्रों को जनपद एवं राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से आनलाईन जोड़ दिया गया है। परिषदीय परीक्षा वर्ष 2025 से सम्बन्धित सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गयी है। बैठक में एसडीएम कैराना स्वप्निल कुमार यादव, एसडीएम ऊन निधि भारद्वाज, परीक्षायें देगें। उन्होंने अवगत कराया कि जिला विद्यालय निरीक्षक जे॰एस॰ उनके द्वारा जनपद में निर्धारित परीषदीय शाक्य, अमित मलिक सहित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्र व्यवस्थापक/ बाह्य संबंधित मौजूद रहें।

केन्द्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति कर दी

गयी है। जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों

पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट/सेक्टर मजिस्ट्रेट/

लग रहा है। ऐसे में आने जाने वाले को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर में बढ़ती ऑटो व ई-रिक्शा, टेंपो से एक तरफ जहां आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बड़ी दुर्घटना की भी

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए 9027776991 knlslive@gmail.com

20 February, 2025

रेवड़ी कलां चौकी के नए भवन निर्माण के लिए मांगी जमीन

शाहबाद। सीओ मिलक द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि थाना मिलक क्षेत्रान्तर्गत पुलिस चौकी रेवड़ी कला विगत कई वर्षों से शाहबाद रामपुर रोड पर स्थित ग्राम रेवडी कलां में मार्ग से करीब दो किलोमीटर अन्दर एक निजी मकान में संचालित किया जा रहा है। शाहबाद रामपुर रोड काफी व्यस्त है तथा जनपद के थाना शाहबाद का बार्डर है। आस पास मिश्रित आबादी होने के कारण साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील भी है इसके साथ रामपुर शाहबाद रोड पर काफी वाहनों का आवागमन रहता है जिस कारण आए दिन काफी दुर्घटनाएं होती रहती है। पुलिस चौकी गाँव के अन्दर होने के कारण पुलिस दुर्घटनास्थल पर देर से पहुँच पाती है, जिस कारण दुर्घटना में घायलों का इलाज देर से मिल पाने के कारण जान का खतरा रहता है। फलस्वरूप पुलिस चौकी रेवड़ी कलां का शाहबाद रामपुर रोड पर होना आवश्यक प्रतीत होता है। रेवड़ी कली के संचालन एवं निर्माण हेतु जनपद के तहसील शाहबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रेवडी कला में स्थित गाटा सं 548 व 660 की भूमि उपलब्ध करने की मांग की है। चौकी के नए भवन निर्माण के लिए राजस्व विभाग से जमीन मांगी गई है।

शाहबाद में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई दो महिलाओं समेत तीन घायल

शाहबाद। कार में सवार होकर रामपुर जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार की दो महिलाओं समेत तीन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बुधवार को सैफनी निवासी मो फिरोज, उनकी बहन निशा तरन्नुम और मां फरजाना कार में सवार होकर शाहबाद होते हुए रामपुर जा रहे थे। रास्ते में शाहबाद रामपुर रोड पर उदयपुर की पुलिया के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। जिसमें तीनों कार सवार बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार

विवाहिता के साथ मारपीट करने पर केस दर्ज

शाहबाद। मंगलवार की देर रात मोतीपुरा निवासी रिंकी ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वह मंगलवार की शाम अपने घर पर काम कर रही थी। तभी घरेलू बातचीत को लेकर उसके जेंड की बेटी ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इससे दो दिन पहले जेठ की साले तथा सलेज ने भी उसके साथ मारपीट की, उसका कहना है कि वह विकलांग है और आए दिन उसके जेट जेटानी तथा जेटानी के मायके के लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते रहते हैं। पुलिस ने महिला की तहरीर पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

झगड़ा करने के आरोपियों का शांति भंग में चालान

शाहबाद। बीते दिनों थाना क्षेत्र के जयतोली गांव में बच्चों के खेल



के दौरान पनपे विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया था। जिसमें दो महिलाएं भी घायल हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। बुधवार को पुलिस ने दो आरोपियों कबरे आलम और मोहब्बे अली निवासीगण ग्राम जयतोली थाना शाहबाद का शांति भंग में चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया

सड़क हादसों से गोवंशो को बचाने को पहनाए रेडियम टैब

शाहबाद। छुट्टा जानवरों को सड़क हादसों से बचाने के लिए

गो रक्षा सेवा समिति ने एक नई पहल शुरू की है। शाहबाद नगर में समिति के राष्ट्रीय 📗 उपाध्यक्ष चौधरी मनोज कुमार के नेतृत्व में 25 गोवंशो के गलों में रेडियम टैब पहनाए गए ताकि कोई भी छुट्टा जानवर



रात के अंधेरे में सड़क हादसों का शिकार न हो सके। इस दौरान रामलीला मैदान में कई गोवंशो के गले में रेडियम टैब पहनाए गए। समिति के जिला उपाध्यक्ष अमरपाल कश्यप, संपर्क प्रमुख अजय यादव, जिला उपाध्यक्ष मोनू यादव, जिला मंत्री सूर्यांश राठौर, जिला महामंत्री जेपी यादव साथ रहे।

शाहबाद में 7 बच्चियों ने की फाजिला की डिग्री, हुई दस्तारबंदी

शाहबाद। मंगलवार को नगर स्थित पीर मैरिज हॉल बाबूजी

की फैक्ट्री में जश्ने रिदा ए फजीलत का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मदरसा जामिया आयशा सिद्दीका लिलबनात में पढ़ने वाली 7 लड़कियों की फाजिला की डिग्री के बाद दस्तारबंदी की गई। उसी मदरसे में पढ़ने वाली 8 लड़कियों के नाशरे भी पढ़ाए गए। इस मौके पर मदरसे की बनिया व नाजिमा आलिमा फाजिला मेहविश फातिमा ने खवातीन लिए इस्लामी तालीम पर रोशनी डाली, साथ ही साथ उन्होंने जामिया आयशा सिद्दीका लिलबनात मदरसे के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर गुजरात से आई रुबीना फातिमा ने मौजूद लोगों को लड़कियों की तालीम की अहमियत के बारे में बताया। वही अपने खिताब में उजमा फातिमा बरेलवी ने बताया कि लड़कियों की तालीम से दो घराने बनते हैं, इसलिए लडिकयों की तालीम का खास ध्यान रखना चाहिए, पीलीभीत से आई अंजुम फातिमा ने कुरान और हदीस की अहमियत पर बयान किया। वहीं रामपुर से आई गुल फातिमा ने मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों से कहा की तालीम मुकम्मल होने के बाद माशारे की खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर सैकड़ो की तादाद में खवातीन मौजूद रही कार्यक्रम का आयोजन रियासत मलिक की देखरेख में किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु बैंक अधिकारीगण के साथ बैठक का हुआ आयोजन

विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 08.03. 2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, जनपद की समस्त तहसील एवं अन्य विभागों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु बुधवार को ए०डी०आर० भवन जनपद

न्यायालय अम्बेडकरनगर में प्री–लिटिगेशन ऋण वादों एवं के अधिकारीगण के साथ बैठक भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला बीएसएनएल के वादों को नियत

जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के

तहसील प्रशासन की लापरवाही की मार

झेल रहे हैं आपादा से पीड़ित परिवार

मजदूर पार्टी के मित्रसेन ने मांग की जल्द से जल्द पीड़ित

परिवारों को मुआवजा दिया जाय अगर एक सप्ताह के अंदर

मुआवजा नहीं मिलता है तो धरना प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन

कर अधिक से अधिक संख्या में सुलह-समझौता के माध्यम से का आयोजन किया गया। इस बैठक में कमलेश भास्कर, अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अम्बेडकरनगर, आर०डी० तिवारी, जिला समन्यक उ०प्र० बड़ौदा ग्रामीण बैंक, अर्चित रावत, जिला समन्वयक पंजाब एंड नेशनल बैंक, गौरव शुक्ला, जिला समन्वयक भारतीय स्टेट बैंक, चन्दन कुमार, प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक, इन्द्रजीत सिंह, प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, अपूर्व सिन्हा, प्रतिनिधि, बैंक ऑफ

बी०एस०एन०एल एवं यूको बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एवं अन्य बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित आये। भारतेन्द्र प्रकाश गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बैठक में उपस्थित बैंकों के अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन वादो / प्रकरणों एवं भारत संचार

प्लाण्ट लगवाये उन्होंने वेन्डरों

को निर्देश दिया कि

जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों

प्रयास करें व अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित ऋण वादों के नोटिस ससमय कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें जिससे वादकारियों को नोटिस के माध्यम से सुचना दी जा सके एवं वादकारी अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता हेत् उपस्थित हो सकें। सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार कार्य करने एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

दिया जाता है। इस योजना को

निस्तारित करवाने हेतु जनपद बड़ौदा, सुरेन्द्र यादव, सोनाटा निगम लिमिटेड के वादों को के बैंकों एवं बी०एस०एन०एल फाइनेन्स, विशम्भरनाथ, प्रतिनिधि, नियत कर निस्तारित कराने का सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक

सोलर पॉवर प्लान्ट की स्थापपना करें एवं अपने घर पर सोलर

अंबेडकर नगर ।तहसील क्षेत्र आलापुर अंतर्गत विगत दिनों सभागार में पी०एम० सूर्य घर आग लगने की वजह से अलग-अलग गांवों में 3 परिवारों का मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। जिससे कि परिवार के सामने बैठक जिलधिकारी महोदय की खाने पीने से लेकर तमाम संकटों का सामना करना पड रहा है अध्यक्षता में आयोजित किया लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं मिल गया। बैठक में मुख्य विकास सका है।अराजी देवारा गांव निवासी संदीप के छप्पर नुमा मकान अधिकारी, जिला विकास में अप्रैल 2024 में आग लगने की वजह से जलकर खाक हो अधिकारी, जिला पंचायत राज गया।सिरसिया सिसवा गांव निवासी सुभाष पुत्र स्व सुक्खू राम के अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा खेत में नवम्बर 2024 में तैयार धान अधिकारी, विद्युत विभाग एवं जिले की फसल में विद्युत तार गिरने से के समस्त बी०डी०ओ० एवं तैयार फसल चलकर खाक हो गई परियोजना अधिकारी यूपीनेडा थी। पीड़ित आर्थिक समस्याओं की एवं यूपीनेडा के इम्पैनेल्ड वेण्डर वजह से शहर में एक मजदूरी कर आदि उपस्थित रहे। बैठक में रहा है उनके पुत्र विमलेश काफी जिलाधिकारी द्वारा सभी भागदौड़ किये। प्रेम निवासी वीरखेत अधिकारियों को निर्देश दिया का आवासीय मकान 22 जनवरी को गया कि शासन द्वारा जनपद अज्ञात कारणों की वजह से आग लगने से लाखों का नुकसान हो अम्बेडकरनगर हेतु 11000 घरों गया। लेकिन अभी तक इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं के लक्ष्य के सापेक्ष 63206 मिल सका है। जिसकी वजह से पीड़ित परिवार परेशान हैं उनको उपभोक्ताओं ने पी०एम०सूर्य घर खाने-पीने तक की दिक्कत हो रही है। भारत की क्रांतिकारी

मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल

पर रजिस्ट्रेशन किया, 34417

लोगों ने फाईनल रूप से सब्मिट

किया जिसके सापेक्ष 389

उपभोक्ताओं के घरों पर ऑनग्रिड

का कार्य कराया जा चुका है। लक्ष्य की पूर्ति के लिये सभी अधिकरियों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष एवं कर्मचारियों से मिलकर

प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने एवं जगह-जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि, सभी सरकारी कर्मचारी,

जनप्रतिनिधि एवं समाज के सभी

सम्मानित लोग इस योजना

को सफल बनाने में सहयोग

प्रचार-प्रसार करें। जिससे कि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ ले सकें। पी०एम०सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 1 किलोवाट पर 45000, 02 कि॰वा॰ पर 90000, 03 कि॰वा॰ पर 108000 04 कि॰वा॰ 108000 तथा 05

किं०वा० पर 108000 अनुदान

सफल बनाने एवं जनमानस तक लाभ पहुंचाने हेतु सभी बैंको द्वारा 07 प्रतिशत ब्याज पर लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। जो सोलर प्लान्ट की अनुमानित लागत 60000 से 65000 प्रति किलोवाट है। सोलर पॉवर प्लान्ट की स्थापना उपरान्त उपभोक्ता के विद्युत बिल में 50 से 80 प्रतिशत तक की बचत होती है। कुल प्लान्ट की लागत 02 से 03 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आगे 20-22 वर्ष तक मुफ्त बिजली मिलती रहती है। प्रति किलोवाट से औसतन बिजली उत्पादन 4-5 यूनिट प्रतिदिन होती है। जिलाधिकारी ने जपदवासियों से इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु पी०एम०सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल (चिंउनतलंहींत.हवअ.पद) पर ऑनलाईन आवेदन करने तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेत् आवहन किया गया।



29 वें स्थापना दिवस का दिनांक 22 फरवरी 2025 को आयुक्त द्वारा किया जाएगा शुभारंभ

अंबेडकर नगर के 29वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 22 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक राजकीय हवाई पट्टी अकबरप्र पर आयोजित होने वाले अंबेडकर नगर विकास एवं विरासत महोत्सवदृ2025 के भव्य एवं सफल आयोजन के दृष्टिगत जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अंबेडकर नगर विकास एवं विरासत महोत्सव २०२५ का भव्य शुभारंभ माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा 22 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार रूपरेखा से अवगत

को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

अंबेडकर नगर ।जनपद जनवरी २०२५ शनिवार को बॉलीवुड नाइट में सुप्रसिद्ध बजे तक संस्कृति विभाग, सूचना तक सुप्रसिद्ध गायक अल्ताफ अपराह्न में अंबेडकर नगर विकास गायक शबाब साबरी की



एवं विरासत महोत्सवदृ2025 का भव्य शुभारंभ होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा 22 फरवरी 2025 को दोपहर 12रू00 बजे से 1रू00 बजे तक स्कूली बच्चों का सांस्कृ तिक कार्यक्रम होंगे। अपराह 4रू00 बजे से 6रू00 बजे तक संस्कृति विभाग सूचना विभाग एवं स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां एवं अन्य कार्यक्रम। कराते हुए कहा कि दिनांक 22 अपराह्न ७७०० से १५०० तक

प्रस्तुतियां तथा रात्रि १रू०० बजे से रात्रि 12रू00 बजे तक भोजपुरी सिनेमा जगत की प्रसिद्ध गायक एवं अदाकारा अक्षरा सिंह की प्रस्तुतियां होंगी। 23 फरवरी 2025 को प्रातः ९रू०० बजे से दोपहर 12रू00 तक डॉगदृशो का आयोजन होगा, दोपहर 12रू00 बजे से 1रू00 बजे तक स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। विभाग एवं स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां एवं अन्य कार्यक्रम। अपराह्न ७७०० से १५०० तक प्रसिद्ध गायक ममता शर्मा की से रात्रि 12रू00 बजे तक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कवि सम्मेलन में डॉ अनामिका जैन अंबर, पद्मश्री डॉ सुरेंद्र शर्मा, शंभू शिखर, दमदार बनारसी, अभय निर्भीक की प्रस्तृतियां होंगी। दिनांक २४ फरवरी २०२५ दिन सोमवार को दोपहर 12रू०० से दोपहर 1रू०० बजे तक स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाम ४रू०० से शाम ६रू३० तक संस्कृति विभाग, सूचना विभाग एवं स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति व अन्य कार्यक्रम। शाम

रजा जी की प्रस्तुतियां तथा रात्रि 9रू00 बजे से रात्रि 12रू00 बजे तक भोजपूरी सिनेमा के प्रसिद्ध गायक एवं अभिनेता खेसारी लाल प्रस्तुतियां तथा रात्रि १५००० बजे यादव द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अंबेडकर नगर महोत्सव २०२५ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार आम जनमानस को समर्पित है। उन्होंने जनपद वासियों को अधिक से अधिक संख्या में राजकीय हवाई पट्टी पर आयोजित होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की और उन्होंने अवगत कराया कि महोत्सव का संपूर्ण कार्यक्रम निशुल्क है इसमें सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। जिलाधिकारी ने

डॉग शो तथा बेबी शो का आयोजन किया जा रहा है। बेबी शो का आयोजन दिनांक 24 फरवरी 2025 को किया जाएगा। बेबी शो में उन माताओ को पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके बेबी हेल्दी हैं। महोत्सव में जनपद के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने वाले नागरिकों को अंबेडकर नगर गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी, अपर उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार वर्मा तथा पत्रकार बंधु तथा सूचना विभाग के अधिकारी / कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश ने जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन

अंबेडकर नगर ।उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल का निजीकरण करने के विरोध में जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया । मालूम हो धरना प्रदर्शन में केंद्रीय महासचिव इंजीनियर बलवीर यादव केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर एके यादव की उपस्थिति में जूनियर इंजीनियर संगठन के सैकड़ो लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया । केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एके यादव ने बताया कि शासन की मंशा विद्युत विभाग को निजी हाथों में सौंपने की है जिससे कर्मचारीयों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जूनियर इंजीनियर संगठन ने मांग की है कि किसी भी कीमत पर निजीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो कर्मचारी संविदा पर लगाए गए हैं संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए । कार्यक्रम में ई सौरभ सिंह,ई यस एन थारू, अनिल कुमार, संजय यादव ,मुन्नालाल यादव, रामजीत, अभिषेक गुप्ता सहित समस्त अवर अभियंता प्रोन्नत

मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी ने ट्रेन से कट कर दी जान

अंबेडकर नगर । मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी ने ट्रेन से कटकर जान दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मालीपुर थाना क्षेत्र के खजूरी करौदी गांव निवासी किरन पुत्री जगदीश 14 वर्ष जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी।

अपराह्न 4रू00 बजे से 6रू00 कहा कि जनपद में पहली बार 7रू00 बजे से रात्रि 9रू00 बजे धूमधाम से मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती:व्यापारियों

शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यापंण

अंबेडकर नगर । शिवाजी तिराहे जलालपुर नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती

व्यापारियों ने धूमधाम से मनाई ।शिवाजी की प्रतिमा पर जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष आनंद जायसवाल, जिला महामंत्री आदित्य गोयल, कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रहरि, प्रचार मंत्री विकाश निषाद,व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सोनी,व्यापारी मनीष सोनी पदाधिकारियों ने

माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि अर्पित की। आनंद जायसवाल ने बताया कि आज हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती है। शिवाजी के शौर्य को याद करते से सभी परिचित हैं। शिवाजी हमारे समाज के लिए गौरव हैं। उनके

को आगे ले जाना है।जिला

उपाध्यक्ष देवेश मिश्र ने बताया

कि शिवाजी के शौर्य की कहानी

हम अपने बच्चों को बताएं ताकि

हुए बताया कि शिवाजी के शौर्य उनमें भी देश प्रेम और वीरता की भावना जागे।एकत्रित हुए व्यापारियों जय भवानी, जय

महामंत्री शरद जायसवाल सतनाम सिंह,मोहन जायसवाल अमित गुप्त,मनोज पांडे,रामवृक्ष भार्गव,गौरव उपाध्याय,संतोष गुप्त,सोनू गुप्ता,विकाश जायसवाल ,महेश जायसवाल ,दीपचंद जायसवाल,आकाश अग्रहरि, भागौती अग्रहरि,अजय अग्रहरि आत्माराम गुप्ता,शिशु मौर्य समेत

आदि मौजूद रहे।



शिवानी, हर हर महादेव, जय वीर बजरंगी, भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का उदघोष किया। इस अवसर पर जिला मंत्री शंभु गुप्ता,नगर हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र

OWN STATE

Ukraine on Sunday said it struck an oil depot in southern Russia that supplies the Kremlin's troops as Russian strikes in Ukraine's eastern Donetsk region, where Moscow claimed further gains, left five civilians dead and 15 others wounded. Ukraine's General Staff said in

a statement Kyiv's security services were responsible for a drone strike in Russia's southern Kursk region that morning on an oil depot used to meet the needs of the Russian military, and contains 11 tanks with a total volume of 7,000 cubic metres (about 247,202 cubic feet), adding the attack prompted "powerful explosions and a fire...probably involving containers with oil products".

"The defence forces continue to take all measures to undermine the military and economic potential of the Russian occupiers and force the Russian Federation to stop its armed aggression against Ukraine," the statement said. Earlier on Sunday, Russia's Defence Ministry said seven Ukrainian drones were shot down overnight over Russian territory, while a regional offito the oil depot in the Kursk province. Firefighters were battling the blaze on Sunday morning after three fuel tanks went up in flames, according to acting regional Gov Alexey Smirnov. Smirnov said nobody was hurt.

The Kursk region lies on the border with Ukraine's Sumy province where Ukraine has in recent months repeatedly targeted various sites, including oil depots and other military infrastructure, inside Russian territory, with drones and other weapons. Ukrainian officials have been pressuring Western allies to be able to use their modern and more sophisticated weapons to strike more valuable targets inside Russian territory.

Also on Sunday, Russian troops continued to eke out gains in Ukraine's war-torn eastern Donetsk province as they pushed westward toward the towns of Pokrovsk and

Russia's Defence Ministry on Sunday said that its forces had taken control of two neighbouring villages some 30 km (19 miles) east of Pokrovsk, Prohres and Yevhenivka. The day before, Moscow claimed the nearby village of Lozuvatske, one of nearly a official Roman Mrochko cial said a drone strike set fire dozen it says it has captured in reported.

Russia started its full-scale invasion of Ukraine in Feb 2022, sending millions of people fleeing to neighbouring countries. Taking control of all of Donetsk, part of the country's industrial heartland that now bears the scars of years of fighting, is one of the

Kremlin's main war goals. Five civilians died and 15 more suffered wounds following Russian strikes in the Donetsk region on Saturday and overnight, local Gov Vadym Filashkin reported on Telegram Sunday. Shortly later, other Ukrainian officials said Russian shelling wounded more civilians, including children, in the east and south. At least eight people suffered wounds after Moscow's forces on Sunday struck the eastern Ukrainian city of Nikopol, local Gov Serhii Lysak report-

ed that same day. Lysak said a toddler and a 10year-old girl were among the victims, six of whom had to be hospitalised.

Russian shelling on Sunday also wounded eight further civilians, including a 10-yearold and two teenagers, in a village in Ukraine's southern Kherson province, local

Russia may deploy new strike weapons in response to the planned US stationing of longerrange and hypersonic missiles in Germany, Russian President Vladimir Putin said on Sunday. Speaking at a naval parade in Śt Petersburg, Putin vowed "mirror measures" after the US ear-lier this month announced that it will start deploying the weapons in 2026, to affirm its commitment to NATO and European defence following Moscow's all-out invasion of Ukraine in February 2022.

"If the US implements such plans, we will consider ourselves free from the previously imposed unilateral moratorium on the deployment of intermediate and shorter-range strike weapons, including increasing the capability of the coastal forces of our navy," Putin said. He added that Moscow's development of suitable systems is "in its final stage".

Both Washington and Moscow have in recent weeks signalled readiness to deploy intermediweapons that were banned for tests that violated it. decades under a 1987 US-Soviet The allegations, which Russia

Putin pledges 'mirror measures' in response to US missiles in Germany



Commander-in-Chief Admiral Alexander Moiseyev, right, greet sailors prior to the main naval parade marking Russian Navy Day in St. Petersburg, Russia, on Sunday

treaty. The US pulled out of the denied, came as tensions agreement in 2019, accusing mounted between Moscow and Russians and a pro-Moscow Moscow of conducting missile the West in the wake of the Ukrainian were ultimately con- that the US weapons to be ballistic missiles.

downing of a Malaysian airliner carrying 298 people over

victed over their role in the

Tomahawk cruise missiles, and "developmental hypersonic weapons", including those with a significantly longer range than the ones currently deployed across Europe. Most of Russia's missile systems

placed in Germany would ulti-

mately include SM-6 missiles,

are capable of carrying either conventional or nuclear warheads. Russia's deputy foreign minister, Sergei Ryabkov, said last week that the Kremlin did not rule out new deployments of nuclear missiles in response

Ryabkov added that defending Kaliningrad, Russia's heavily militarised exclave wedged between NATO members Poland and Lithuania, was of particular concern.

Putin has for years cast US deployment of missile infrastructure in Europe as an aggressive move aimed at hamstringing Moscow's capabilities. The news about the planned stationing of new veapons in Germany came at a NATO summit in Washington earlier this month. At the same event, allies announced that a new US base in Poland, Ukraine's western neighbour, is Washington and Berlin said in ready to enter operation and a joint statement this month will be capable of intercepting

Lawmakers from 6 countries pressured not to attend conference in Taiwan

hinese diplomats are pres-Usuring lawmakers from at least six countries not to attend a China-focused summit in Taiwan, participants told The Associated Press.

Politicians in Colombia, Slovakia, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and one other Asian country that declined to be named, say they are getting texts, calls and urgent requests for meetings that would conflict with their plans to travel to Taiwan, in what they describe as efforts to isolate the self-gov-

The summit begins Monday and is being held by the Inter-Parliamentary Alliance on China, a group of hundreds of lawmakers from 35 countries concerned about how democracies approach Beijing. The Associated Press spoke to the organizers and three lawmak-

emails sent by Chinese diplomats to the lawmakers asking whether they were planning to participate in the summit.

'I'm Wu, from Chinese Embassy," read a message sent to Antonio Miloshoski, a member of parliament in North Macedonia. "We heard that you got an invitation from IPAC, will you attend the Conference which will be held next week in Taiwan?"

In some cases, lawmakers described vague inquiries about their plans to travel to Taiwan. In other cases, the contact was more menacing: One lawmaker told AP that Chinese diplomats messaged the head of her party with a demand to stop her from going.

"They sent a direct message to the President of my party, to stop me from traveling to Taiwan," said Sanela Klaric, a member of parliament in erned island that Beijing views Bosnia and Herzegovina. "He as its own territory to be

showed me the message from them. He said, I will advise you not to go, but I cannot stop you, it's something you have to make a decision.

China routinely threatens retaliation against politicians and countries that show support for Taiwan, which has only informal relations with most countries due to Chinese diplomatic pressure. Klaric said the pressure was unpleasant but only steeled her determination to go on the trip.
"I really am fighting against

countries or societies where the tool to manipulate and control peoples is fear," said Klaric, adding that it reminded her of threats and intimidation she faced while suffering through the Balkans war in the 1990s. "I really hate the feeling when somebody is frightening you." China vehemently defends its claim to Taiwan, a self-govannexed by force if necessary. Last week, Beijing criticized Kuang military drills, saying that Taiwan's ruling Democratic Progressive Party was "carrying out provocations to seek independence." Any attempt to whip up ten-

sions and use force to seek independence or reject reunification is doomed to failure," Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning told reporters. Γhe Chinese Foreign Ministry did not immediately respond to a request for comment. The Inter-Parliamentary Alliance on China, which aims to coordinate diplomacy in response to perceived threats from Beijing, has long faced pressure from the Chinese government. Some members have been sanctioned by Beijing, and in 2021 the group was targeted by Chinese state-sponsored hackers, according to a U.S. indictment unsealed earlier this year.

Mobile internet restored in B'desh

The mobile internet connec-I tion was restored in Bangladesh on Sunday, 10 days after it was restricted by the authorities across the country to stop the spread of fake news on social media amidst the deadly nationwide violence over reforms in the quota system in government

Addressing a press conference here, Minister of State for Information

Communication Technology (ICT) Zunaid Ahmed Palak announced that 5GB internet will be given for free to all users for three days after the connection is restored, the Dhaka Tribune newspaper reported.

The mobile internet connectivity was restored at around 3:00 pm local time.

Users of Robi, Grameenphone, Banglalink and other operators in Dhaka said they could access the internet through their phones around 3 pm, the

On July 18, the government shut down mobile internet following the escalation of violence across the country. At the time, Palak said the decision was made "in light of the current crisis in the country and to stop the spread of fake news on social media", The Daily Star newspaper reported. The next day, amid escalating

violence, the Department of Disaster Management building was set on fire, adjacent to which was a data centre. While Internet Service Providers Association of Bangladesh (ISPAB) officials said that the fire might cut 30-40 per cent of the bandwidth supply, broadband internet connection for the entire country was disrupted within an hour.

Bangladesh staved disconnected from both broadband and mobile internet between July 18 and July 23, when broadband internet was restored in

However, mobile internet vices were snapped following

remained unavailable until Regarding access to social

media platforms, Palak said Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) has sent letters to authorities of social media platforms, including Facebook,

'Their representatives have to come to Dhaka by July 31 to give explanations. Then, after discussing it with them, we will make a decision," he said. The BTRC is responsible for regulating all matters related to telecommunications in Bangladesh.

Tiktok and YouTube.

Bangladesh witnessed violent clashes between the police and mostly student protesters demanding an end to a controversial quota system that reserved 30 per cent of government jobs for relatives of veterans who fought in Bangladesh's Independence in 1971.

The internet and mobile ser-

On Monday last, the apex court slashed the veterans quota to just 5 per cent. Thus, 93 per cent of civil service jobs will be merit-based while the remaining 2 per cent reserved for members of ethnic minorities, transgender and physically challenged people.

The violence has reportedly killed more than 100 people, according to local newspapers. However, there are no official figures available for

Prime Minister Sheikh Hasina on Tuesday defended her decision to enforce a curfew with a shoot-on-sight order following the clashes, asserting that tough measures were taken to ensure the security of the lives and properties of the

Bangladesh crawled back to normalcy on Wednesday with rush hour traffic returning to streets in the capital, and limited reopening of banks, garment factories and internet

Reformist formally takes over as Iran president



Khamenei, centre, gives his official seal of approval to newly elected President Masoud Pezeshkian, as acting President Mohammad Mokhber stands at left, in an endorsement ceremony in Tehran, Iran, on Sunday

■ TEHRAN

Tran's supreme leader on **■**Sunday formally endorsed Masoud Pezeshkian as president, allowing the reformist politician and heart surgeon to take charge of a country weakened by economic sanctions over its nuclear programme.

During an endorsement ceremony, Ayatollah Ali Khamenei urged Pezeshkian to prioritise neighbours, African and Asian nations as well as countries that have "supported and helped" Iran in Tehran's foreign relations policies. Khamenei criticised European

nations for "behaving badly to us" by adopting sanctions, an oil embargo and for calling out alleged human rights abuses. He also condemned Israel for its actions in Gaza in the deaths of children, women and hospitalised people "who did not shoot a single bullet" against Israeli forces. "The Zionist regime is showing

its ugliest face as a war criminal," said Khamenei, accusing Israel of setting a "new record in assassinations" and cruelty. He also denounced the US Congress for allowing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to address the legislative body.

Speaking at the same ceremony, Pezeshkian paid homage to Gen. Qassem Soleimani, the architect of Iran's regional military activities, who was killed in US drone attack in 2020. He reiterated his promise to pursue a "constructive and efficient" foreign policy, bolster the rule of law offer equal opportunities to citizens, support families and protect the envi-

In his first official act in office, Pezeshkian appointed Mohammad Reza Aref, 72, as his first vice-president. Aref, who's considered a moderate reformist, held the post between 2001-2005 under former president Mohammad

Khatami. Aref holds a doctorate in engineering from Stanford University. Pezeshkian takes over from

his predecessor Ebrahim Raisi whose death in a May helicopter crash that sparked the early election. He will take the oath of office in parliament Tuesday and will have two weeks to form his own cabinet for a vote of confidence in parliament. The new Iranian president

pledged in his election campaign that he would make no radical changes to Iran's Shiite embracing theocracy, Khamenei as the final arbiter in all matters of state. Pezeshkian could bend Iran's foreign policy toward either confrontation or collaboration with the West and faces the constant challenge of hard-liners still pulling the strings in government.

Pezeshkian has tried to walk

the line between hard-liners

and reformists with whom he

has identified.

Meloni aims to reset | Bilawal's party says ready ties on China visit

an official visit to China this week to try to reset relations as fears of a trade war with the European Union are interwoven with continued interest in attracting Chinese investment in auto manufacturing and

other sectors. Meloni met Chinese Premier Li Qiang in the Chinese capital on Sunday ahead of a forum with Italian and Chinese business

leaders. Her five-day visit comes several months after Italy dropped out of China's Belt and Road Initiative, a signature policy of Chinese leader Xi Jinping to build power and transportation infrastructure around the world to stimulate global trade while also deepening China's ties with

Italy's decision to join in 2019 appeared to be a political coup

Beijing (): Italy's Prime for China, giving it an inroad Minister Giorgia Meloni is on into Western Europe and a symbolic boost in a then-raging trade war with the United States. But Italy says the promised economic benefits didn't materialise, and its membership created friction with other Western European governments and the United States. Still, Italy remains keen to pursue an otherwise strong economic relationship with China. Stellantis, a major automaker that includes Italy's Fiat, announced in May that it had formed a joint venture with Leapmotor, a Chinese electric car startup, to begin selling EVs in Europe. Electric vehicles have become a symbol of growing China-EU trade tensions, with the European Union imposing provisional tariffs of up to 37.6 per cent on Chinamade electric vehicles in early

talk with Imran Khan ■ ISLAMABAD

The Pakistan Peoples Partyled by Bilawal Bhutto Zardari has said that it is ready to talk with jailed former prime minister Imran Khan if the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) founder is willing to engage, amidst heightened political instability in the cash-strapped country.

"It is being said that the PTI founder is ready to talk. If Imran Khan is ready to talk then that's a positive thing," Senior PPP leader Khurshid Shah said while speaking to the media in Quetta, the provincial capital of Balochistan. Shah welcomed the possibili-

ty of talks as a positive development. "President Asif Ali Zardari has always tried to solve problems through negotiations, and the PPP would play its role if needed," Shah was quoted as saying by the Express Tribune newspaper. The PPP's willingness to engage with Khan's party comes amidst heightened political instability, following the PTI's hard-line stance against the incumbent Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) led government. The PPP, along with the Muttahida Qaumi Movement-Pakistan (MQM-P) and other allies, supports the PML-N of Prime Minister Shehbaz Sharif. The two former rivals recently witnessed a war of words. The ruling PML-N accepted all the demands of PPP over the federal budget and allocation of development funds.

Since Khan's ouster through a vote of no confidence in 2022,

the PTI has maintained a strong opposition to the PPP-PML-N alliance. Political tensions increased

after the February 8 elections,

which saw the two parties

forming a coalition govern-

ment in the Centre. Calls for reconciliation have been growing from various societal and political quarters, urging the PTI to negotiate with the government. Khan's party had previously rejected talks with what it termed the "Form-47 government," instead showing a preference for dialogue with the military establishment. In April, PTI's Shehryar Afridi indicated a preference for negotiations with Army chief Gen Asim Munir and the Director General of Inter-Services

Intelligence (DG ISI)

Venezuelan poll to have ripple effects throughout Americas

 $P^{\rm olls\ have\ opened\ in}_{\rm Venezuela,\ where\ people}$ are voting Sunday in a presidential election whose outcome will either lead to a seismic shift in politics or extend by six more years the policies that caused the world's worst peacetime economic collapse.

Whether it is President Nicolás Maduro who is chosen, or his main opponent, retired diplomat Edmundo González, the election will have ripple effects throughout the Americas. Government opponents and supporters alike have signalled their interest in joining the exodus of 7.7 million Venezuelans who have already left their homes for opportunities abroad should Maduro win

another term. González is representing a coalition of opposition parties after being selected in April as Polls open at 6 am local time. The number of eligible voters is estimated to be around 17 mila last-minute stand-in for oppo-

election to coincide with what would have been the 70th birthday of former President Hugo Chávez, the revered leftist firebrand who died of cancer in 2013, leaving his Bolivarian revolution in the hands of Maduro. But Maduro and his United Socialist Party of Venezuela are more unpopular than ever among many voters who blame his policies for crushing wages, spurring hunger, crippling the oil in the

lion. Authorities set Sunday's

to migration. Maduro, 61, is facing off against an opposition that has managed to line up behind a single candidate after years of intraparty divisions and election boycotts that torpedoed their ambitions to topple the ruling party.

sition powerhouse Maria Corina Machado, who was blocked by the Maduro-controlled Supreme Tribunal of Justice from running for any office for 15 years. Machado, a former lawmaker,

swept the opposition's October primary with over 90% of the vote. After she was blocked from joining the presidential race, she chose a college professor as her substitute on the ballot, but the National Electoral Council also barred her from registering. That's when try and separating families due González, a political newcomer, was chosen.

Sunday's ballot also features eight other candidates challenging Maduro, but only González threatens Maduro's rule. Venezuela sits atop the world's largest proven oil reserves, and once boasted Latin America's most advanced economy. But it entered into a free fall after Maduro took the

helm. Plummeting oil prices, widespread shortages and hyperinflation that soared past 130,000% led first to social unrest and then mass emigration. Sanctions from US President Donald Trump's administration seeking to force Maduro from power after his 2018 reelection - which the US and dozens of other countries condemned as illegitimate only deepened the crisis. In recent days, Maduro has

crisscrossed Venezuela, inaugurating hospital wards and highways and visiting rural areas where he had not set foot in years. His pitch to voters is one of economic security, which he underscores with stories of entrepreneurship and references to a stable currency exchange and lower inflation rates. The capital, Caracas, saw an increase in commercial activity after the pandemic,

bolstering an economy the

International Monetary Fund forecasts will grow 4% this year - one of the fastest in Latin America - after having shrunk 71% from 2012 to 2020. "They tried to subjugate our

people," Maduro said of the United States during his closing rally Thursday in Caracas, "but today we are standing tall and ready for victory on the 28th of But most Venezuelans have

not seen any improvement in their quality of life. Many earn under \$200 a month, which means families struggle to afford essential items. Some work second and third jobs. A basket of basic staples - sufficient to feed of family of four for a month - costs an estimated \$385. The opposition has tried to seize on the huge inequities arising from the crisis, during which Venezuelans abandoned their country's currency, the bolivar, for the US dollar.

YOU WILL BE **SURPRISED** TO KNOW THAT IF PASTA IS **CONSUMED** PROPERLY, IT CAN HELP IN REDUCING **WEIGHT. TO-**DAY WE ARE GOING TO TELL YOU SOME TIPS TO MAKE HEALTHY PASTA, WHICH WILL MAKE YOUR WEIGHT LOSS

Losing extra weight is a very difficult and tiring task. For this people have to follow special diet. Usually people stick to home cooked food during their weight loss journey. But after a point home cooked food starts getting boring and people have no other option but to eat it. If you are also bored of your daily food and are

JOURNEY

Keep these things in mind while making pasta, the taste will reduce weight easily



looking for some loss journey healthy and tasty delicious."Choose option, then you the right pasta- If you are consuming can include pasta in your diet. Yes, pasta to be healthy you read it right, and lose weight, eating pasta leads then it is important to choose the right to weight gain. But you will be surpasta. Usually prised to know that people make and if pasta is coneat pasta made of sumed properly, it white flour, due to can help in reducwhich their weight ing weight. Today increases. Instead we are going to tell of pasta made of you some tips to white flour, choose make healthy pasta made of pasta, which will millet, jowar and make your weight ragi. Pasta made

from whole grains is rich in many essential nutrients besides being delicious to eat.""Use vegetables- If you are thinking of putting on weight, then consuming only pasta can cost you dearly. That's why you use vegetables in pasta. This will increase the taste and nutrient content of the pasta and will not increase your

weight. You can add vegetables like corn, broccoli, zucchini, bell peppers, onions, olives and jalapenos to pasta.""It is important to use the right oil- Olive oil is considered the best to use for making pasta. Olive oil prevents pasta from sticking to the gut. If you do not have olive oil, you can use mustard oil.

SUMMER NAIL CARE TIPS

Summer season takes away the shine of nails, take care of them like this

THE BEAUTY OF THE HANDS **COMES FROM** THE SHINY NAILS, WHICH GET SNATCHED AWAY IN THE SUMMER SEASON. THAT'S WHY PEOPLE SHOULD TAKE CARE OF NAILS IN THE SUMMER SEASON TODAY, IN THIS ARTICLE, WE ARE GOING TO TELL PEOPLE THE TIPS TO TAKE CARE OF NAILS IN THIS SEASON.

The beauty of the hands comes from the shiny nails, which get snatched away in the summer season. Along with taking care of face, hands and feet in summer, it is also necessary to take care of nails. Nail care is not just limited to beautifying the hands. Actually, hands sweat during the summer season, due to



which the risk of with water. Just washspreading the infection ing with water cleans the increases. In such a situdirt of hands and nails to ation, if the nails are a great extent. You can also use soap if you taken care of daily, then want.""Apply top coat the risk of infection can be reduced. That's why on the nails- In the sumpeople should clean mer season, our nails are their nails properly in more exposed to sunthe summer season. light and water, due to which they become Today we are going to tell some tips, which weak and break. Alwill be very useful for ways keep a top coat on you while taking care of your nails to prevent your nails."Keep your them from getting weak. nails clean- Because of Top coat protects nails your nails, you can fall from sun and water. ill in the summer sea-Apart from this, it also son, so always try to protects the nails from the damage caused by keep them clean. To keep the nails clean, the chemicals present in you can wash them the swimming pool.

This small carelessness of yours can be dangerous during dinner, know about it



lifestyle that make us suffer from diabetes. If you also want to avoid diabetes, then leave these habits from your lifestyle immediately. You should know that what are the mistakes you do, which increase the level of blood sugar. Today we will tell you about the same mistakes, due to which the problem of diabetes can arise."eating curd everyday"Curd is considered an important part of our healthy diet. The nutrients present in it benefit the body in many ways. But Ayurveda says that by consuming curd daily, you will gain weight and may face problems like poor metabolism. Which causes the risk of diabetes."overeating at night"Dinner should always be light and nutritious so that it can be easily digested. But some people eat heavy food at night. Which affects their liver. Due to which their metabolism slows down and the risk of many diseasesincreases."overeating"Ayurveda experts say that if you are hungry for two rotis, then eat only one roti. Because eating more can cause you many diseases. Eating more food than your appetite can make you a victim of cholesterol, digestive problems and obesity."not hungry, still eating"Food should be eaten only when you feel hun-

If you see these signs on your body then your life may be in trouble



blood clotting is sometimes considered good. This is because if you get hurt somewhere, clots prevent excess blood from coming out of the body. Although blood clots are sometimes dangerous too.

Trauma recovery

Blood clot ie problem of blood clotting in the blood vessels, the organs do not get enough blood. Due to which serious problems can arise in the body. That's why today we will tell you how your life can be lost due to the formation Because due to the of blood clot in some

him."lungs"The heartbeat becomes faster due to the formation of a blood clot in the lungs. Blood in cough, difficulty in breathing starts. If you feel something like this, go to your doctor im-

parts of the body. So mediately. Because let's know about your slight negligence can increase the disease further. "Heart"When blood clot forms in the heart, you may experience symptoms similar to a clot in the lungs. But if you have had a heart attack, you may also

Overwhelmed

iting along with h e pain."Brain"The fora mation of a blood clot can cause a serious blockage in the brain. In fact, without oxygen from the blood, your brain cells begin to die within minutes. A

feel nausea and vom- clot in your brain can cause pain on one side of the head, confusion, seizures, trouble speaking, and weakness." Abdomen"The formation of a clot in the veins of the stomach and esophagus can lead to cuts, which can lead to bleeding.

Mental health struggles

Madrid.

Feyenoord knocks AC Milan out of Champions League

मनोरंजन

Seldom has a player's sending off had such an influence on a game.

AC Milan was to left rue Theo Hernandez's second yellow card - for diving - as Feyenoord advanced to the Champions League last 16 at champion's expense with a 1-1 draw in the second leg of their playoff on Tuesday, giving the Dutch team a 2-1 win on aggregate.

Bayern Munich, Club Brugge and Benfica also won their playoffs, eliminating Celtic, Europa League winner Atalanta, and French team Monaco, respectively.

"In soccer everything changes in a second," said Milan forward Santiago Giménez, who scored one of the competition's fastest goals against his former team, Feyenoord, in the first

Hernandez was sent off for a dive in the 51st when Milan dominating Giménez's opener had leveled the tie. Feyenoord had won the first leg of the playoff 1-0 last week. But Milan's defense looked

anything but assured after referee Szymon Marciniak showed Hernandez another yellow card for his dive. The France defender had earned his first before the break for lashing out at a Feyenoord player after a foul on teammate João Félix. Bueno crossed for

Julián Carranza to head Feyenoord level on the night in the 73rd, enough to put the Dutch team into the next

"We're very disappointed. We started well and scored straight away. It seemed like Feyenoord couldn't hurt us," Giménez said of the game's pivotal moment. "Today it happened to Theo but it can





soccer. We have the utmost respect for Theo. We will give him all our support.

Feyenoord's Givairo Read was shown a red card following another melee after the final whistle. Feyenoord will play either Inter Milan or Arsenal in the round of 16.

Davies to Bayern's rescue

Alphonso Davies scored in the fourth minute of stoppage time for Bayern to reach the last 16 with a 1-1 draw against Celtic.

Davies, a substitute, bundled the ball over the line after Leon Goretzka's effort was kept out, saving Bayern the ordeal of extra time after German player Nicolas Kühn had scored against his former club to draw Celtic level on aggregate.

Davies' goal gave Bayern a 3-2 win over two legs. powerhouse either

Bayer

Club Brugge eliminated Atalanta with a 3-1 win in

Atalanta's efforts in vain

Bergamo for a 5-2 win on aggregate. The 19-year-old forward Chemsdine Talbi scored twice as the visitors gave Gian Piero Gasperini's

team a lesson in efficiency. Atalanta had 29 efforts a goal, compared to seven from the visitors, and tried 89 attacks compared to 16 from

Halftime substitute Ademola Lookman scored seconds after the restart to unleash hopes of a miracle — Atalanta just needed three more goals to level the tie - but Simon Mignolet saved Lookman's penalty in the 61st as those opes gradually faded.

Benfica reached the last 16 with a 3-3 draw against Monaco in Lisbon, giving the Portuguese team a 4-3 win on

Indian women's football team begins Pink Ladies Cup campaign

new-look Indian senior Awomen's football team will be eager to take on Jordan in the opening match of the Pink Ladies Cup, in its first game under new head coach Crispin Chettri, here on Thursday.

The tournament, which is being held during the FIFA International window, also has Russia and Korea Republic as other teams.

Notably, the Indian team does not have senior players Ashalata Devi and Bala Devi, while a few young players have been pencilled in. India are ranked 13th in Asia

(69th in the world), while Jordan are 14th in the continent (74th in the world). The two sides have played three matches against each other, having won one each,

Chettri, who was appointed as head coach earlier this month, feels it is imperative for India to win matches in order to progress as a team at the continental level.

"Jordan have progressed in a



good way over the last few years, but I think these are matches that we have to win if we want to progress," said

"We have a good mix of young and experienced players, so it will be a competitive game," said the 50-year-old who has played for the Indian youth team. The Blue Tigresses had a 10day camp in Anantapur, Andhra Pradesh, before travelling to Sharjah, where they will have two training

sessions, before their first match. Chettri brushed aside talks of the difference in rankings among the teams, choosing instead to focus on the fact that the Blue Tigresses are currently seeing a transitional phase.

It's a transitional phase for the team, where we have brought in a lot of new players. We are all willing to suffer for the overall good of the team," he said.

"I think it's important to support and encourage these girls because most of them are breaking a lot of barriers just by being here. We must focus on the positives right

Gujarat's Priyank plays solid knock against Kerala Ranji Trophy semifinal

ujarat's seasoned batter Priyank Panchal played a knock, remaining unbeaten on 117, as the former champions reached 222 for 1 at stumps on Day 3 of their Ranji Trophy semifinal against Kerala, here on Wednesday. Trailing by just 235 runs with two full days remaining, Gujarat's batting unit showed

resilience and intent on a placid Motera surface, where it Kerala seemed themselves 100 runs short, having scored at snail's pace. Resuming their first innings at 418/7, Kerala added 39 more runs before being bowled out for 457 just 10 overs into the morning session.

Mohammed Azharuddeen remained stranded on a magnificent 177 off 341 balls, his career-best knock featuring 20 fours and a solitary six. His innings provided the

backbone to Kerala's total as wickets tumbled around him. Gujarat skipper Chintan Gaja provided the first breakthrough of the day, dismissing Aditya Sarwate with a delivery that



straightened from middle stump to clip the off-stump. Sarwate managed just one run before becoming Gaja's 200th scored 73 off 118 balls, striking first-class victim in his 59th match. Sensing the urgency to

took Kerala past 450 with a Arzan However, with wickets falling at the other end, the Kerala wicketkeeper-batter was left

stranded as Nidheesh MD (run out) and Nedumankuzhy Basil (bowled by Gaja) perished in quick succession.

add quick runs, Azharuddeen

boundary

Nagwaswalla.

off

In response, Gujarat began their innings with a positive intent as openers Panchal and Aarya

Desai put together a solid 131run stand in 36.4 overs. Desai, aggressive yet composed,

11 boundaries and one six. He looked assured before losing control and dragged a wide delivery from Basil onto his stumps

Despite that breakthrough, Kerala's bowlers struggled to make further inroads.

Panchal, a veteran of the domestic circuit, anchored the innings with a mix of caution and aggression.

Panchal reached his 29th firstclass century -- his second of the season -- off just 155 balls, bringing up the milestone in style with a six over long-on against Sarwate.

The 34-year-old, once on the fringes of the Indian team after Gujarat's maiden Ranji Trophy triumph in 2016-17, has had an ordinary season with only one century (against Rajasthan) and half-century (against Vidarbha) prior to this match. However, he delivered when his

team needed him the most.

Hingrajia provided solid support at the other end with a patient, unbeaten 30 off 108 balls, hitting three boundaries. For Kerala, veteran spinner Jalaj posed some questions and induced a few edges, but the lack of support from the field meant Gujarat

consolidating. Brief Scores:

Kerala 457; (Mohammed Azharuddeen 177 not out, Sachin Baby 69, Salman Nizar 52; Arzan Nagwaswalla 3/81, Chintan 222/1; Gujarat

(Priyank Panchal 117 batting, Aarya Desai 73, Hingrajia Nedumankuzhy Basil 1/40).

Gopi T, Ashwini return to Apollo Tyres New Delhi Marathon

PTI NEW DELHI

Defending men's and champions Gopi Thonakal and Ashwini Madan Jadhav will headline in the 10th edition of Apollo Tyres New Delhi Marathon scheduled to take place here on February 23. Recognised by Athletics

Federation of India (AFI) as

a national event, the marathon will also see participation from the including Anish Thapa, Belliyappa, Man Singh, Akshay Saini and Vikram Bangriya the men's section. The likes of Laxmi KM, Nirmaben Thakor Bharatjee and Disket Dolma will feature in the women's field. The event, which is also recognised by Athletics, is a qualifying race for International Amateur

Runners will compete across four categories - full marathon, half marathon,

10k and 5k Former Indian cricket team captain Ajinkya Rahane and head badminton coach Pullela Gopichand will flag

off the marathon. "The Apollo Tyres New race; it's a celebration of human spirit, perseverance, and unity. As the organisers, we are thrilled to see the incredible participation from athletes across the world, and we are proud to continue fostering an inclusive, inspiring event," said Nagaraj Adiga, Race

"Our goal is to create a platform where every runner, from elite athletes to first-timers, can push their limits and be part of something much larger than themselves," he added.

Director and CMD - NEB

Sports.

The event is supported by Delhi Metro, offering free rides to and from JLN Stadium for participants with bibs.

Jamshedpur FC look to cut down gap with FC Goa | Fonseca loses in first round in Rio Open

chance to cut down the gap with FC Goa for the second spot if they beat bottom-Mohammedan placed Sporting in their Indian Super League (ISL) match here on Thursday. Jamshedpur are third in the

table with 34 points from 20 matches. However, they have ended up losing thrice in their previous five encounters. Their away form has been

concerning, having faced six defeats on the road, but Mohammedan Sporting have not really optimised their home advantage either. In fact, the Kolkata-based side

is presently on a four-gamelong losing streak and have garnered just 11 points from their 20 games until now, with both of their wins coming



away from home.

In the reverse fixture, the Khalid Jamil-coached Red had clinched a Miners convincing 3-1 win, and they will have to iron out their offensive concerns, having gone scoreless in their previous two outings, to repeat that feat.

Mohammedan, on the other hand, will eye their first win in

11 attempts at home -- having

drawn thrice and lost seven

times in their backyard this

Jamshedpur are realistically chasing a second-placed finish, but they trail FC Goa (39) by five points. Ending up in the second spot will see them qualify directly for the semifinals and not participate in the one-legged knockout,

but they cannot afford to drop

Jamshedpur FC have won the only game played between these two teams this season. Jamshedpur head coach Khalid Jamil assured that his team is committed to registering a win from this away game.

"It's an away game. We need to get a positive result. Everyone is working hard and the team needs to continue doing that moving forward," he said.

Mohammedan SC's Indian assistant coach Mehrajuddin Wadoo praised Jamshedpur FC and the season they had had so far.

We know Jamshedpur FC have performed well this season. It's not going to be an easy game for us, but we are going to try our best to put our best foot forward," he said.

PTI RIO DE JANEIRO

tennis ■ João Fonseca frustrated his home fans at the Rio Open in a first-round loss, two days after winning his first ATP title.

Fonseca lost 6-1, 7-6 (4) to No. 60-ranked Alexandre Muller of France, making 34 unforced errors appearing to be exhausted during the match.

The 18-year-old Brazilian won his career first title at the elite level with victory in the Argentina Open final on

Muller will meet Argentina's Tomás Martin Etcheverry in the next round.

"It was tough to play against such a great player and perhaps 5,000 (fans), but I'm very happy to get the victory today," Muller said. "I was



feeling calm in half of the match. I didn't take my chances to take the break in the second set and then he was playing better and better. played a great tiebreak to

On the weekend, Fonseca became the first man born in 2006 or later to win a toplevel ATP singles title, the

like Khelo India and private

sponsorships, the system remains incomplete, he said.

"You're giving them (athletes)

a turbo scholarship to swim

in the sea. You turbo-charge

them for 2 km, then they look

back and there's no one, and

if they go ahead, there's

Highlighting the issue of affordability, Gopichand said:

"If you are middle-class and

earning, say, two lakhs a

month, you would want your

child to earn more. But if

there's so much uncertainty

in sports, why would a parent

If you are very rich, no

push their child into it?

Gopichand

nothing,"

explained.

10th youngest champion in ATP Tour history and the youngest South American player to win a title in the ATP Tour era (since 1990). Last year, the rising star

reached the quarterfinals of the tournament in Rio, an ATP 500, and finished off 2024 by winning the Next Gen ATP Finals in December.

Murray to continue as Djokovic's coach

PTI DOHA

ndy Murray looks set to Aremain as Novak Djokovic's coach through the French Open. The 24-time Grand Slam champion told the ATP Tour's in-house media channel on Tuesday that Murray has agreed to stay on as

Athletes deserve a future beyond 'saluting bureaucrats', says Gopichand for education. This doesn't He also stressed that society happen by doing it separately." Despite initiatives must change its perspective

India's chief badminton Lcoach Pullela Gopichand on Wednesday called for respect for sportspersons after retirement, saying athletes deserve more than "saluting bureaucrats" after dedicating everything to the country during their playing days.

51-year-old Hyderabad also emphasised the need for better postopportunities, career stressing that financial stability is crucial for athletes to transition into meaningful roles after calling time on

their careers. While sport is now seen as a viable career path in India, Gopichand highlighted a pressing issue: What happens to athletes who dedicate their lives to sports but don't reach

"Many years ago, this question wouldn't have come up because sport was not big enough. The mass of people

profession was significant. But today, we have players who are completely dedicated to sport, who do not pursue education. "My challenge is, how do I

put them in meaningful roles that offer respect and financial stability, like every profession?' Gopichand said. Gopichand said that while elite athletes who achieve

the concern lies with those who fall just short. "If you make it to the top, the government takes care of you very well. They give jobs, land, money. Fantastic, no complaints.

for example, you continue playing the sport and reach age 24 or 25, but haven't made it to the Indian team. You're next to Manu Bhaker, Nikhat Zareen, or Aman Sehrawat - you're

national and international glory are well taken care of. second, third, or fourth in the field. What happens to them?

acknowledged.

There are many of them. Their life is gone because they have nothing else." Even for those who win Olympic medals, their careers after sport are frustratingly limited. You take Sakshi Malik, Aman Sehrawat, or Vijay

Kumar. They have won an

Olympic medal, the pinnacle

of sport, but will go to his office every day and salute a

junior-level IRS officer... Why

The former All England champion said that athletes be given opportunity to transition into meaningful roles. "Send us to Mussoorie teach Institute,

should I still salute you?

Gopichand questioned.

administration. Send us to ISB, teach us business. And if we fail, that's different. But you didn't even try. We have given our whole life to sport, to the country, and then we get nothing," Gopichand said.

on athletes and their postsport careers. Sportspersons need respect.

We don't want to just salute bureaucrats for 30 years. We have given our all to the sport and the country, and we deserve better opportunities." Gopichand acknowledged cricket is an exception where money flows easily, but for most sports, even making it to the top doesn't guarantee a financially secure life. He pointed to global models

where universities integrate and education seamlessly. "If you get 25 medals in Stanford, 17 medals in

Loughborough, sport is so big in those universities that they are studying and competing. Eighty percent of Fortune 500 companies have professional sportspersons in leadership roles," said the Dronacharya awardee.

"Education is important for sport, and sport is important

problem. But for the others, it's an issue." According to Gopichand,

middle-class families need to recognize that not every young athlete will become a Sachin Tendulkar or a PV

Djokovic and Murray joined forces ahead of the Australian Open in what initially was seen as an unlikely pairing.

the semifinals at Melbourne Park but retired from the lastfour match against Alexander Zverev because of a hamstring injury. "I expressed my desire to continue the collaboration with him, so I am really glad he did accept," said Djokovic, who was facing Matteo Berrettini in the opening round of the Qatar Open later Tuesday.

After Murray retired last year,

Djokovic reached out with the

The 37-year-old Serb reached

coaching proposition.